



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2010/कार्तिक 17, 1932

No. 2311]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2010/KARTIKA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

का.आ. 2737(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2985(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2009 और का.आ. 1817(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 218.000 कि.मी. से 295.700 कि.मी. (हुनगुन्द-होसपेट सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचनाओं से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचनाओं का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन क्रमशः तारीख 30 दिसम्बर, 2009 को “विजय कर्नाटक” और “इण्डियन एक्सप्रेस” दोनों में तथा तारीख 8 सितम्बर, 2010 को “विजय कर्नाटक” और “टाइम्स ऑफ इण्डिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 218.000 कि.मी. से 295.700 कि.मी. तक (हुन्नगुन्द-होसपेट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. कोण्डल	1. कोण्डल	1. चिलकामुकी	24/1	निजी	शुष्क	3000	1. शारदा, पत्नी शंकरगौड़ा 2. शंकर गौड़ा, पुत्र बालनगौड़ा
				25/1	निजी	शुष्क	1300	1. असक्ता, पत्नी बलनगौड़ा 2. शंकरगौड़ा, पुत्र बालनगौड़ा
			2. हिरेशुलीकेरी	63/AA	निजी	शुष्क	4085	1. शंकरप्पा, पुत्र रामचन्द्रप्पा लमनी 2. लोकप्पा, पुत्र पीरया 3. हरिजीतसिंह, पुत्र संतोषसिंह
			3. होसुर	68/1A	निजी	शुष्क	70	1. मंजुनाथ, पुत्र रत्नप्पा बाडिगेर 2. करिबप्पा, पुत्र गिंदप्पा चिलकामुकी 3. हनुमन्ताप्पा, पुत्र करिबप्पा [प्लेज दू. वीएसएसएन इरकलगडा]
				66/A	निजी	शुष्क	4021	1. वीरुप्पा, पुत्र इरप्पा गुलाकी 2. हनुमन्ताप्पा, पुत्र इरप्पा गुलाकी 3. सैयद राजा हुसैन, पुत्र सैयद हुसैन साब (कब्जादार उजगेरसिंह) [प्लेज दू. एसबीआई मुनिराबाद] 4. यनकप्पा, पुत्र यनकप्पा एमजी यनकप्पा [प्लेज दू. एसबीआई मुनिराबाद] 5. गीता, पत्नी गिरीश कानावी 6. बालप्पा, पत्नी सोमलिंगप्पा 7. एस. खादरसाब, पुत्र सैयदसाबुल हसन 8. गंगप्पा, पुत्र इरप्पा गुल्ली 9. माल्ताप्पा, पुत्र इरप्पा गुल्ली 10. सैयद खादरयाश, पुत्र मदाराम साब
				56/E	निजी	शुष्क	1325	1. यमनप्पा, पुत्र लाचम्पा, चिलकामुकी [प्लेज दू. पीएसडीबी कोण्डल] 2. नारायणा दास, पुत्र भाहनलाल लावी, किन्नाल
				57/A	निजी	शुष्क	3414	1. हनुमन्ता, पत्नी बालप्पा हरिजन 2. हुलिया, पुत्र परसप्पा 3. गंगप्पा, पत्नी दुर्गा
				52/AA	निजी	शुष्क	30	1. यनकप्पा, पुत्र सन्ना यमनप्पा 2. धर्मप्पा, पुत्र सन्ना यमनप्पा एमजी मी हनुमन्ता [प्लेज दू. सिडिकेंट बैंक कोण्डल] 3. शंकरप्पा, पुत्र गंगप्पा बाडिगेर
				67/AA	निजी	शुष्क	1824	1. गविसिंदप्पा, पुत्र सन्ना करडी 2. वीरुप्पा हनुमन्ता पुत्र इरप्पा गुलिका 3. बालप्पा, पत्नी सोमलिंगप्पा
				51/1	निजी	शुष्क	130	1. शंकरगौड़ा, पुत्र इरप्पा गौड़ा 2. मंजुनाथ, पुत्र लक्ष्मन्ता अरकरी 3. कब्जादार-इरगौड़ा नरसिंह
				55	सरकारी	शुष्क	502	1. सरकारी (परम्परा) 2. हनुमन्ता, पत्नी यमनप्पा
				53	सरकारी	शुष्क	5208	गोलमघन्द, पुत्र मीठालालजी चोपड़ा
			4. बुडगुम्पा	103	निजी	शुष्क	11	1. कै. मल्लिनाथ, पुत्र डेडडा वीरप्पा 2. करियप्पा, पुत्र करियप्पा 3. बी. रवि, पुत्र श्रीधर
				101//A	निजी	शुष्क	76	1. सन्ना हनुमन्ता, पुत्र हुच्चप्पा करडी 2. ललिता, पत्नी ए. वी. प्रसाद 3. सन्ना हनुमन्ता, पुत्र हुच्चप्पा करडी 4. शिवपुत्रम्मा, पत्नी हनुमन्ता
				100/B	निजी	शुष्क	275	1. करियप्पा, पुत्र यमनप्पा संगती 2. नारायणप्पा, पुत्र यमनप्पा संगती 3. यमनप्पा, पुत्र रामप्पा संगती 4. मुकप्पा, पुत्र करियप्पा संगती
				110/A	निजी	शुष्क	5091	1. प्रदीप, पुत्र ईश्वरप्पा हंगल 2. शंकरप्पा, पुत्र ईश्वरप्पा हंगल 3. हनुमन्ता, पुत्र गौड़ा हयाती 4. एन. श्रीधर, पुत्र एन. सुब्बा राव 5. अनूराधा, पत्नी बी. एन. श्रीधर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92	निजी	शुक्ल	112	1. एच. एम. पवित्रा, पत्नी एच. एम. वीरुपक्षीया 2. भरमप्पा, पत्नी यमनप्पा संगती
				93	निजी	शुक्ल	1046	1. वेंकटेश, पुत्र कम्बैया इल्लूर [प्लेज दू पीजीबी बैंक कोषल] 2. सन्ना रामलिंगप्पा, पुत्र जामन्ना
				84/A2	निजी	शुक्ल	1078	1. एन. श्रीधर, पुत्र सुब्बा राव 2. भगवन्तप्पा, पुत्र यंकप्पा कुडीमोती 3. एन. अनुराधा, पत्नी एन. श्रीधर 4. गोवर्धन दास, पत्नी किशन दास परिवार
				83	निजी	शुक्ल	260	शिवैया, पुत्र चन्द्रशेकरैया [प्लेज दू पीजीबी बुकुगुप्पा]
				79	निजी	शुक्ल	708	1. अन्नी माइकल, पत्नी के. जे. माइकल 2. इरम्मा, पत्नी मुदुकप्पा संगती 3. मेरी, पत्नी डी. एल. राजु
				63/5B	निजी	शुक्ल	8642	1. टी. के. एम. इस्माईल, पुत्र एस. बी. कुन्हे अहमद हाजी 2. पी. खाडीरसाब, पुत्र मम्मासाब
				105	सरकारी	शुक्ल	13	कर्नाटक सरकार आर ओ आर
			4. होसहल्ली	8/2	निजी	शुक्ल	309	1. विजयकुमार, पुत्र वीरबसप्पा पट्टनशेट्टी 2. सुदेशकुमार, पुत्र वीरबसप्पा पट्टनशेट्टी 3. विठोबन्ना, पुत्र यनकन्ना चित्राली
				10/1	निजी	शुक्ल	48	1. निगम्मा, पत्नी संगन्ना करडी 2. गविसिद्धप्पा, पुत्र संगन्ना करडी 3. संगन्ना, पुत्र अमरप्पा करडी
			5. मेटागल	11	निजी	शुक्ल	1556	जितेन्द्र, पुत्र मदनलाल बंसाजी
				9/A1	निजी	शुक्ल	1352	1. बसवराज, पुत्र अडेप्पा आबालाबन्दी 2. शरणप्पा, पुत्र शिवप्पा [प्लेज दू एसबीआई मुनिराबाद] 3. होन्प्पा, पुत्र शिवप्पा
				84	निजी	शुक्ल	213	मोतीलाल, पुत्र मुरलिराहर्ण काटवा
				90/A	निजी	शुक्ल / सिधित	247	1. शरणप्पा, पुत्र गुरप्पा 2. अमरेश, पुत्र अडेप्पा आबालाबन्दी 3. होन्प्पा, पुत्र शिवप्पा
				77/A	निजी	शुक्ल / सिधित	4482	1. कोटरप्पा, पुत्र सिद्धप्पा संगल 2. बसवराज, पुत्र चन्नाप्पा संगनाल 3. शिवम्मा, पत्नी गुरुबसप्पा संगनाल
				51/1 51/3	निजी	शुक्ल / सिधित	4202	1. बसैया, पुत्र पट्टैया 2. मोतीलाल, पुत्र भगवान चान्दजी चौपड़ा
				49	निजी	शुक्ल / सिधित	1173	1. द्वारका स्वामी, पुत्र रेवनसिद्धैया 2. वीरुपक्षीया, पुत्र करबसैया 3. पुर्णन्द स्वामी, पुत्र करबसैया [प्लेज दू पीजीबी इरकलगडा] 4. रुदैया, पुत्र करबसैया, मेटागल
				52	निजी	शुक्ल / सिधित	81	1. वीरुपक्षीया, पुत्र सन्ना बसैया 2. शिवमुर्तैया, पुत्र सन्ना बसैया 3. चन्नबसैया, पुत्र वीरमदैया 4. ओकारसिंह, पुत्र प्यारसिंह कोषल 5. चन्नैया, पुत्र संगैया मन्नागेरी 6. रेदैया, पुत्र संगैया मन्नागेरी 7. बसैया, पुत्र संगैया 8. वीरबसम्मा, पत्नी शरणैया
				66/AA2	निजी	शुक्ल / सिधित	249	1. माल्लप्पा, पुत्र नागप्पा 2. मुदुकप्पा, पुत्र मालकजप्पा 3. आडेप्पा, पुत्र मालकजप्पा 4. गुलप्पा, पुत्र दयामप्पा हलगेरी 5. एम. रामचन्द्र राजु, पुत्र अप्पाळा राजु
				57	निजी	शुक्ल / सिधित	1190	1. शिवप्पा, पुत्र गुरुबसप्पा संगनाल 2. गुलप्पा, पुत्र गुरुबसप्पा संगनाल 3. शान्तम्मा, पत्नी शिवानन्दप्पा संगनाल
				65/A	निजी	शुक्ल / सिधित	151	वीरुपक्षीया, पुत्र करीबसैया
			6. जिनापुर	30/A	निजी	शुक्ल / सिधित	279	1. हनुमप्पा, पुत्र रुपचन्दप्पा लमनी 2. भरमप्पा, पुत्र रुपचन्दप्पा लमनी [प्लेज दू पीजीबी इरकलगडा] 3. कोमारेप्पा, पुत्र पाण्डुरंगप्पा पुजारी
				21/2+1	निजी	शुक्ल	262	1. के. इरन्ना, पुत्र रामचन्द्र राव कल्याणी 2. के. वेंकटेश, पुत्र रामलिंगा राव कल्याणी
			7. अमरापुर	29/A	निजी	शुक्ल	3740	1. एच. जी. रामालु, पुत्र एच. आर. गवियप्पा 2. एच. आर. श्रीनाथ, पुत्र एच. जी. रामालु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				28/2A	निजी	शुक्ल	3783	मोहिन्दर सिंह, पुत्र सरदार बोरसिंह
				25	सरकारी	शुक्ल	2425	सरकारी जमीन (परमपोक)
			8. वनबल्लारी	95/B	निजी	शुक्ल	1038	1. हनुमप्पा भरमप्पा अराशिकेरा [प्लेज दू एसबीआई मुनिराबाद और एसबीएम कोपल] 2. माल्लप्पा, पुत्र माल्लप्पा अराशिकेरा
				101/1	निजी	शुक्ल	70	सरकारी जमीन (परमपोक)
			9. शाहपुर	27/A	निजी	शुक्ल	1558	1. हनुमप्पा, पुत्र कारे यल्लप्पा बुडबुडकी 2. श्रीधर, पुत्र एन. सुब्बा राव गुलबल्ली 3. कोलुरप्पा, पुत्र हनुमप्पा जोशी 4. मल्लिकार्जुन, पुत्र वीरप्पा जोशी 5. भरमप्पा, पुत्र भरियप्पा बेल्लाद [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				17/1	निजी	शुक्ल	1814	1. कोलुरप्पा, पुत्र हनुमप्पा जोशी 2. कृष्णा, पुत्र वीरप्पा जोशी [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद] 3. मंजुनाथ, पुत्र भीमप्पा 4. लसमबा, पत्नी भीमप्पा काम्बली 5. फकीरप्पा, पुत्र परसप्पा जोशी [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद] 6. इक्बाल हुसैन डी. बी., पुत्र डी. एम. बशीर बाशा 7. परमेश्वरा, पुत्र कोलुरप्पा बुडबुडकी
				18	निजी	सिधित	1810	एम. बालचन्द्र, पुत्र पी. मुत्तुस्वामी [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकेरा]
				42	निजी	सिधित	2286	1. यल्लप्पा, पुत्र निगप्पा चौदकी 2. रामप्पा, पुत्र हुलुगप्पा चौदकी 3. माल्लप्पा, पत्नी दोड्डा निगप्पा चौदकी 4. रामप्पा, पुत्र सन्ना निगप्पा चौदकी 5. नारायण, पुत्र अगन्ताचार्य बालूर
				43	निजी	सिधित	495	1. माल्लप्पा, पत्नी निगप्पा चौदकी 2. रामप्पा, पुत्र सन्ना निगप्पा चौदकी
			11. कुकनापल्ली	175/AA	निजी	शुक्ल	2682	1. हनुमप्पा, पुत्र माल्लप्पा होसाल्ली [प्लेज दू एसबीएम कोपल] 2. निगप्पा, पुत्र माल्लप्पा होसाल्ली [प्लेज दू एसबीएम कोपल] 3. शिवप्पा, पुत्र माल्लप्पा होसाल्ली [प्लेज दू एसबीएम कोपल]
				178/AAP2	निजी	शुक्ल	1422	1. करियप्पा, पुत्र माल्लप्पा बेल्लारी 2. कुलविन्दरसिंह, पुत्र अण्णारा सिंह 3. नीलप्पा, पुत्र धोटप्पा 4. निगप्पा, पुत्र हुलुगप्पा होसाल्ली
				180/A1	निजी	शुक्ल	523	1. गुडनेप्पा, पुत्र बसप्पा 2. शिवप्पा, पुत्र अमरप्पा 3. वीरुप्पाप्पा, पुत्र बसप्पा कुडलूर
				182	निजी	सिधित	432	1. वीरुप्पाप्पा, पुत्र ईश्वरप्पा हराला 2. गुरप्पा, पुत्र निगप्पा आराला [प्लेज दू एसबीआई मुनिराबाद] 3. अमरप्पा, पुत्र निगप्पा आराला 4. बसप्पा, पुत्र निगप्पा आराला [प्लेज दू एसबीआई मुनिराबाद]
				185	निजी	सिधित	599	बसवरज, पुत्र वीरुप्पाप्पा कुलकर्णी [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				2/EE	निजी	शुक्ल	170	वीरुप्पाप्पा, पुत्र बादा अमरप्पा
				111	निजी	शुक्ल	940	1. पी. किरण कुमार, पुत्र मास्कर रेड्डी 2. जी. हमपन्ना, पुत्र बसप्पा होसकेरी
				110	निजी	शुक्ल	11	निगनगीडा, पुत्र यनकनगीडा
				67/A2	निजी	शुक्ल	287	1. अमरप्पा, पुत्र निगप्पा बागनाल 2. फोम्पन्ना, पुत्र निगप्पा मेटागल
				65/1	निजी	शुक्ल	5454	1. यमनप्पा, पुत्र मुक्कलप्पा 2. हुलिंगेबा, पत्नी यमनप्पा 3. येल्तप्पा, पुत्र येल्तप्पा [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
			12. कौरवल्ली	1/A	निजी	शुक्ल	53	1. भोजनगीडा, पुत्र निगनगीडा 2. बेटदप्पा, पुत्र हनुमप्पा 3. कृष्णाप्पा, पुत्र सन्नेप्पा
				19/B	निजी	शुक्ल	2584	एन. श्रीधर, पुत्र एन. सुब्बाराव [प्लेज दू एसबीएम और एसबीआई कोपल]
				83	निजी	शुक्ल	600	1. सन्ना हनुमप्पा, पुत्र कादप्पा 2. लक्ष्मीदेवी, पत्नी सी. वी. चन्द्रशेखर [प्लेज दू पीजीबी हिटनाल]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82	निजी	शुक्	2724	1. हनुमप्पा, पुत्र अन्दिगालप्पा सिदोमी 2. इरप्पा, पुत्र अन्दिगालप्पा सिदोमी 3. जयप्पा, पुत्र अन्दिगालप्पा सिदोमी (कब्जादार - रामप्पा, पुत्र हनुमप्पा सिदोमी)
			13. कसनाकन्डी	1/2	निजी	शुक् / सिधित	3400	1. डी. श्रीधर, पुत्र कोटेश्वर राव 2. जीतेश्वर कुमार, पुत्र अशोक कुमार तलेदा
				2/A	निजी	सिधित	8700	1. ईशप्पा, पुत्र गुलप्पा 2. कालकप्पा, पुत्र गुलप्पा
				4/4	निजी	शुक्	21300	1. असलम पाशा, पुत्र जी दादा साहेब हाजी 2. जी नूरुद्दीन, पुत्र जी दादा साहेब हाजी 3. नसीर हुसैन, पुत्र जी दादा साहेब हाजी 4. मो. शाफी, पुत्र जी दादा साहेब हाजी 5. साइफुल्ला, पुत्र जी दादा साहेब हाजी
				5/2P	निजी	शुक्	19575	1. वाई. जोती, पत्नी वाई. वी. मोहन राव 2. सिद्धप्पा, पत्नी फकीरप्पा 4. सुमित्रा, पत्नी सुधाकर राव 5. पी. के. हेमा, पत्नी सुधाकर राव पी [रागुणसिंहर एच. जगन्नाथ]
				6/7	निजी	शुक्	12701	1. वाई. रविन्द्र राव, पुत्र वाई. वी. मोहन राव [प्लेज दू बैंक ऑफ इंडिया होस्पेट] 2. वाई. जोती, पत्नी वाई. वी. मोहन राव
				7/4	निजी	शुक्	10385	1. के. पुर्णचन्द्र राव, पुत्र वैकेया 2. वाई. चमा महेश्वर राव, पुत्र मल्लैया
				9/1A	निजी	शुक्	8746	1. निगप्पा, पुत्र बालप्पा कुरी 2. एच. जगन्नाथ, पुत्र एच. वेणुगोपाल 3. एच. श्रीनिवास, पुत्र एच. वेणुगोपाल 4. भीष्मा अहमद, पुत्र सुफीकुट्टी
				10/3	निजी	शुक्	8808	1. वाई. रविन्द्र राव, पुत्र वाई. वी. मोहन राव [प्लेज दू कनारा बैंक मुनिराबाद] 2. यमनुरप्पा, पुत्र मानप्पा जीर [प्लेज दू पीजीबी हिटनाल और वीएसएसएन अगलकरे] 3. गविसिद्धप्पा, पुत्र शरणप्पा, एमजी बसवन्नेप्पा, पत्नी शरणप्पा 4. बसवराज, पुत्र केन्नप्पा हुगर
			14. होसाली-सिंगपुर	183	निजी	शुक्	856	एहम साब, पुत्र इमाम साब
				182/2	निजी	शुक्	832	1. पीरा हुसैन साब, पुत्र राजा हुसैन साब 2. इब्राहिम साब, पुत्र राजा हुसैन साब [प्लेज दू वीएसएसएन होसाली]
				184/2/1	निजी	शुक्	8	1. बसवराज, पुत्र मुद्दुराव पाटिल 2. रामन्ना, पुत्र मुद्दुराव पाटिल 3. एच. एस. रामलिंगप्पा, पुत्र जगन्ना
				178/A	निजी	शुक्	1245	1. पम्पनगोडा, पुत्र वीरुपनगोडा गाली [प्लेज दू बैंक ऑफ मैसूर] 2. सन्ना बसप्पा, पुत्र वीरुपनगोडा गाली
				189	निजी	शुक्	668	नरेन्द्र कुमार बालादत्ता, पुत्र अप्पाराज बालादत्ता
				177/A1	निजी	शुक्	3687	एमजी, पुत्र लालजी पटेल
				176/1,2	निजी	शुक्	1635	1. सैयद जहिदाबी, पत्नी सैयद खालिलुल्ला 2. सैयद मुक्तारुन्निसा, पत्नी सैयद मुनीर अहमद [प्लेज दू पीजीबी हिटनाल और वीएसएसएन होसाली]
				175/2	निजी	शुक्	1039	1. शिवलिंगप्पा, पुत्र प्रबन्ना अगसार [प्लेज दू वीएसएसएन होसाली] 2. सुलोचनाप्पा, पत्नी शिवप्पा अगसार [प्लेज दू वीएसएसएन होसाली]
				174/B P1	निजी	शुक्	1586	फकीरप्पा, पत्नी बसप्पा गाली [प्लेज दू वीएसएसएन होसाली]
				197	निजी	शुक्	1303	डेयरी फार्म
			15. हिटनाल	225/B	निजी	शुक् / सिधित	128	1. गविसिद्धप्पा, पुत्र कोटरेया हिरमठ [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकरे] 2. फकीरप्पा, पत्नी भरमप्पा [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकरे] 3. होन्नुसाब, पुत्र नाम्पेसाब काइगदबी 4. भीमप्पा, पुत्र सुबालेप्पा होसाली
				224	निजी	शुक् / सिधित	210	1. क्रियानन्द, पुत्र वाई. वीरुप्पा 2. सोमा, पत्नी क्रियानन्द [प्लेज दू सिडिकोट बैंक मुनिराबाद] 3. वीरुप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214	निजी	शुक्क / सिंचित	60	हुलिंगेवा, पत्नी नागप्पा आरकरी [प्लेज दू टीजीबी हिटनाल]
				196/1	निजी	सिंचित	1222	1. फकीरवा, पत्नी बेनालप्पा हिटनाल 2. बसम्मा, पत्नी बसवराज कुव्यापन्नवर [प्लेज दू टीजीबी हिटनाल]
				199/AA	निजी	सिंचित	6560	1. हनुमप्पा, पुत्र सिद्धप्पा वादा 2. हनुमवा, पत्नी रागप्पा वादा
				164	निजी	शुक्क	885	वाई. रवीन्द्र राव, पुत्र वाई मोहन राव शिवपुर
				165/1	निजी	शुक्क	7736	वाई. रवीन्द्र राव, पुत्र वाई मोहन राव शिवपुर
				163/BP1	निजी	सिंचित	14610	1. येल्सवा, पत्नी फकीरप्पा नाइकर [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकरे] 2. पुष्पा रानी, पत्नी राणावीरसिंह परमार [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकरे] 3. भीमप्पा, पुत्र फकीरप्पा नाइकर [प्लेज दू वीएसएसएन अगलकरे] 4. कै. शन्तराम शेडटी, पुत्र काकुबाल कृष्णप्पा 5. ए. सुरेश बाबु, पुत्र शैलमिरी राव 6. ए. भीमवा, पत्नी हनुमन्तप्पा 7. भीमप्पा, पुत्र सन्ना माल्लप्पा
				178/B	निजी	सिंचित	56	1. गुरुनाथ भट्ट, पुत्र तीम्पन्ना भट्ट [प्लेज दू सिडिकेट बैंक मुनिराबाद] 2. रविन्द्रनाथ, पुत्र लोकप्पा मान्गूर [प्लेज दू वीएसएसएन होसाल्ती]
				154	निजी	सिंचित	728	सुनी तुलसीराम, पुत्र धर्मचन्द्रजी
			16. मुनिराबाद	163	निजी	सिंचित	1947	शंकरगोडा
				164/P1	सरकारी	शुक्क	2254	सरकारी - सेंट्रल कोकोनट प्लांटेशन - डिपार्टमेंट - मुनिराबाद
				XXX	सरकारी	शुक्क	12527	कर्नाटक सरकार
			17. होलेमुदलापुर	112	निजी	सिंचित	1841	अब्दुल राशीद खान, पुत्र पाठेखान, मुनिराबाद
				113	निजी	सिंचित	357	अब्दुल सुमन खान, पुत्र पाठेखान
				110	निजी	सिंचित	28	1. अब्दुल अजीज खान, पुत्र पाठेखान 2. इक्बाल हुसैन डी-बी, पुत्र डी. एम. बशीर बाशा
				109	निजी	सिंचित	62	मारे गोडा, पुत्र हनुमन्त गोडा [प्लेज दू वीएसएसएन मुनिराबाद]
				108/P2	निजी	सिंचित	258	1. वैकप्पा, पुत्र मुदियप्पा 2. निगप्पा, पुत्र मुदियप्पा, होसानिगापुर [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				103	निजी	सिंचित	282	डॉ. चन्द्रशेखर, पुत्र ईरन्ना कुम्भर
				105	निजी	सिंचित	26	1. सी. एच. गोविन्दप्पा, पुत्र नारायणप्पा होस्पेट 2. राजेश कुमार, पुत्र टी. के. ब्याडगी
				101	निजी	सिंचित	231	सगप्पा, पुत्र ईरा बसप्पा आर.एच. ए
				97/2	निजी	सिंचित	267	ए. नटराज, पुत्र अरुणप्पा गोडर
				96	निजी	सिंचित	35	1. जालील अहमद, पुत्र वकील अहमद 2. खातीजाबी, पत्नी शैक अल्लाबक्शीसाध 3. हुलिंगेवा, पत्नी हनुमन्त उप्पार
				72	निजी	सिंचित	382	1. सन्ना रामन्ना, पुत्र अन्जनप्पा कम्बेर 2. आर. लक्ष्मण, पुत्र सन्ना रामन्ना
				73	निजी	शुक्क	795	1. मोहिन्दर सिंह, पुत्र सरदार बोरा सिंह 2. कुलदीप सिंह, पुत्र महेन्द्र सिंह 3. बलवन्त सिंह, पुत्र महेन्द्र सिंह
				75	निजी	सिंचित	412	बी. ई. सतोष, पुत्र बी. ई. मनीयक्का
				77/P2	निजी	सिंचित	10	1. हनुमन्तप्पा, पुत्र मुदुकप्पा मेकाली 2. गोनेप्पा, पुत्र मुदुकप्पा मेकाली [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				68	निजी	सिंचित	27	1. मारकन्डप्पा, पुत्र यमनप्पा हट्टी 2. निगप्पा, पुत्र मुदियप्पा होसाल्ती [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				64	निजी	सिंचित	15	भीमवा, पत्नी सन्ना मारेगोडा हट्टी
				63	निजी	सिंचित	518	1. शिवप्पा, पुत्र फकीरप्पा होसनिगापुर 2. डी. प्रसाद, पुत्र डी. मधु राव 3. अब्दुल हनीफ, पुत्र अब्दुल अजीज [प्लेज दू वीएसएसएन मुनिराबाद] [प्लेज दू एसबीएम मुनिराबाद]
				62	निजी	शुक्क	97	पेरिया स्वामी, पुत्र पालनीस्वामी
				61	निजी	शुक्क	105	आरकोनियम्मा, पत्नी पोन्नप्पा
				59	निजी	शुक्क	91	देवप्पा, पुत्र बोड्डा यमनप्पा हट्टी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58	निजी	शुष्क	925	पी नटराज, पुत्र पी धेरूमल
				56	निजी	शुष्क	80	1. रामन्ना, पुत्र बिन्दुप्या नायक 2. पी. नटराज, पुत्र पी. धेरूमल
				54	निजी	सिंचित	307	1. सी. एन. गोविन्दप्या, पुत्र सी. नारायणप्या 2. मरेगोडा, पुत्र हनुमन्तप्या गौडा हत्ती 3. हनुमन्तगौडा, पुत्र हनुमन्त गौडा हत्ती
				45	सरकारी	शुष्क	82	सरकारी - परम्पोक
				114	निजी	सिंचित	95	एम. के. किशोर, पुत्र पी. चैव्या
				111	निजी	सिंचित	345	1. अब्दुल अजीज खान, पुत्र फतेखान 2. मुदुकप्या, पुत्र नागप्या हत्ती 3. डॉ. चन्द्रशेखर, पुत्र ईरन्ना कुम्हार
				104/2	निजी	सिंचित	533	1. राजेश कुमार, पुत्र टी. के. ब्याडगी 2. आदेप्या, पुत्र हनुमप्या 3. बालप्या, पुत्र हनुमप्या कसनकण्डी
				74	सरकारी	सिंचित	625	परम्पोक (फालो) - सरकारी
				47	निजी	सिंचित	325	मारेगोडा, पुत्र हनुमन्तगौडा
				46	निजी	सिंचित	993	मरेगोडा, पुत्र हनुमन्तगौडा [प्लेज दू वीएसएसएन मुनिराबाद]
				42	निजी	सिंचित	130	मरेगोडा, पुत्र हनुमन्तगौडा [प्लेज दू वीएसएसएन मुनिराबाद]
				44	निजी	सिंचित	75	चन्दा लक्ष्मण, पुत्र हनुमन्तप्या कटागल
				160/P1	निजी	शुष्क	112880	तेनन्त फार्मिंग सोसाइटी होले - मुदरेलापुर
				66/U	निजी	शुष्क	69	1. हम्मप्पा, पत्नी बसवराज गौडा 2. सुकर्मगौडा, पुत्र अमरेगौडा 3. साबन्नाबा, पत्नी सिद्दनगौडा पोलिस पाटिल
				46/K	निजी	शुष्क	246	1. यमनुरप्या, पुत्र बालप्या 2. शरणप्या, पुत्र सोमार्थ [प्लेज दू वीएसएससी हिरेवांकलाकुन्टा बैंक] 3. बसप्या, पुत्र शेकरप्या 4. कलकन्तकोरा, पुत्र गुरुनामसिंह [प्लेज दू वीएसएससी हिरेवांकलाकुन्टा बैंक]
				29/E	निजी	शुष्क / सिंचित	227	1. हनीफसाब, पुत्र कासीमसाब [प्लेज विद सिडिकेट बैंक कुस्तगी] 2. मो. हनीफसाब, पुत्र कासीम साब शेकर [प्लेज विद सिडिकेट बैंक कुस्तगी] 3. कासीमबी, पत्नी सरवरसाब शेकर [प्लेज विद पीजीबी हिरेवांकलाकुन्टा बैंक]
				28/A	निजी	शुष्क	4132	1. हिरे कासीमसाब, पुत्र माम्मुसाब 2. अब्दुलसाब, पुत्र मम्मासाब 3. एम. कुम्भारेबडी, पुत्र वेंकटरबडी [प्लेज विद वीएसएसएन हिरेवांकलाकुन्टा बैंक]
				26/3/B	निजी	शुष्क	170	अब्दुलसाब, पुत्र मम्मासाब शेकर
				22/2	निजी	शुष्क	5049	संगप्या, पुत्र वीरमद्रप्या मुलिमानी
				24	निजी	शुष्क	163	सरकारी - माफी गयारना डेट पी रिजर्वड फॉरेस्ट
			2. कुदुगमारी	39/A	निजी	शुष्क	907	1. शरणप्या 2. हनमप्या, पुत्र दयामप्या 3. हनमप्या, पुत्र यंकप्या
				35/B	निजी	शुष्क	1015	1. लक्ष्मण, पुत्र यमनप्या गौडा 2. रामन्ना, पुत्र कुन्टेप्या बुक्काडी [प्लेज विद वीएसएससी हिरेवांकलाकुन्टा]
				41/K	निजी	शुष्क	935	1. कनकप्या, पुत्र सीमप्या 2. शरणप्या, पुत्र दयामप्या बाद्दार
				23/K/A	निजी	शुष्क	138	हनुमप्या, पत्नी नागप्या बुध
				20/K	निजी	शुष्क	90	रुद्रगौडा, पुत्र बसन्तगौडा पोलिस पाटिल
				18/3	निजी	शुष्क	2152	1. बदरी नारायण, पुत्र वासुदेव वारनेकर 2. फकीरगौडा, पुत्र हनुमगौडा 3. बालनगौडा, पुत्र हनुमगौडा पोलिस पाटिल 4. शरणप्या, पुत्र कालकप्या ब्याली
				16/2	निजी	शुष्क	219	बम्पनलप्या, पुत्र हनुमगौडा [प्लेज विद एसबीएम इलकल]
				13/IEE	निजी	शुष्क	398	1. हनुमन्तप्या, पुत्र शिवलप्या कम्मार 2. यमनप्या, पुत्र शेटपपा 3. धिन्नप्या गौडा, पुत्र बुज्जप्यागौडा 4. आदिवेप्या, पुत्र कल्याणप्या
				10/1	निजी	शुष्क	12	1. तुगलेगौडा, पुत्र फकरप्या गौडा 2. तुलगेप्या, पुत्र बंगलेप्या (कम्मादार)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3/U	निजी	शुक्	10	नागप्पा, पुत्र पम्पन्ना भूधन्वर
				4/1AA	निजी	शुक्	3787	1. संगप्पा, पुत्र कल्याणप्पा 2. शेकरप्पा, पुत्र आदिदेवप्पा अंगडी (प्लेज विद एएससी) 3. शरणप्पा, पुत्र संगप्पा अल्लाल्ली 4. हनुमप्पा, पुत्र गिचप्पा
				5/2	निजी	शुक्	1365	गंगनगीडा पुत्र हनुमगीडा (प्लेज विद पीएलडीबी)
		3. उप्पालादिन्नी	104	निजी	शुक्		4728	1. संगप्पा, पत्नी शरणप्पा 2. मुरिगेप्पा, पुत्र बसप्पा गंजी 3. शिवम्मा, पत्नी रेवनसिद्धप्पा 4. अन्नपुर्णप्पा, पत्नी श्रीमन्त गौडा
			106	निजी	सिधित		4664	1. पाण्डुरंगराव, पुत्र प्रह्लादराव, पुत्र प्रह्लादराव कुलकर्णी 2. राघवेन्द्रराव, पुत्र प्रह्लादराव कुलकर्णी (प्लेज विद पीएलडीबी येलबुर्गा)
			109	निजी	सिधित		6305	1. मल्लिकार्जुन, पुत्र वीरुप्पाप्पा हरलापुर (प्लेज विद पीजीबी हिरवाकलाकुन्टा) 2. रत्नम्मा, पत्नी मल्लिकार्जुन हरलापुर (प्लेज विद पीजीबी हिरवाकलाकुन्टा)
			74/A	निजी	शुक्		3400	शेकरप्पा, पुत्र बालप्पा
			75	निजी	शुक्		385	1. निगम्मा, पत्नी सिद्धलिंगनगीडा मालिपाटिल 2. हनुमप्पा, पत्नी मुक्कलप्पा इम्मी
			19/B	निजी	शुक्		78	1. शरणप्पा, पत्नी बालप्पा बान्नी 2. शेकरप्पा, पत्नी हनुमप्पा गोमी 3. हनुमप्पा, पुत्र हनुमप्पा गोमी 4. बीडीओ कर्नाटक सरकार 5. सहादेवप्पा, पुत्र हनुमन्तप्पा अम्बिगेरी 6. सिद्धप्पा, पुत्र आदिदेवप्पा इम्मी 7. शेकरप्पा, पुत्र माल्लप्पा मादियालार 8. हनुमप्पा, पत्नी मुक्कलप्पा इम्मी 9. शेकरप्पा माल्लप्पा मादियालार
			26/B	निजी	शुक्		2974	शिवप्पा, पुत्र हम्पन्ना हारलपुर
			25/A	निजी	शुक्		2894	1. वल्लमलेया, पुत्र गुरुशान्तैया शास्त्री (प्लेज विद एससीएस हिरवाकलाकुन्टा) 2. गुरुशान्तैया, पुत्र शम्भुलिंगैया (प्लेज विद एससीएस हिरवाकलाकुन्टा) 3. इरबसव्वा, पत्नी आदैया गुरुविना मठ 4. शादन्त्रव्वा, पत्नी संगैया
			24/P2	निजी	शुक्		2448	रणबसप्पा, पुत्र महन्तप्पा सज्जनार (प्लेज दू पीएलडीबी और आरडीसीसी येलबुर्गा और पीएससी हिरवाकलाकुन्टा बैंक)
			23/P1	निजी	शुक्		3949	1. सिद्धरामप्पा, पुत्र वीरुप्पाप्पा गट्टी 2. शिवम्मा उर्फ शेकरम्मा, पत्नी पम्पन्ना, पत्नी पम्पन्ना सज्जन
			22/3	निजी	शुक्		346	महाबलरावरा, पुत्र गंगप्पा मुल्लामाती (प्लेज विद वीएसएसएन हिरवाकलाकुन्टा)
			39/A	निजी	शुक्		4099	1. रुद्रम्मा, पत्नी इश्वरप्पा केरी 2. शिवपुत्रप्पा, पुत्र ईशप्पा केरी (प्लेज विद पीएससी हिरवाकलाकुन्टा बैंक)
			40	निजी	शुक्		1005	पम्पैया, पुत्र वीरैया (प्लेज विद जी वी एस के जी येलबुर्गा और वीएसएसएन येलबुर्गा बैंक)
		4. हिरवाकलाकुन्टा	11	निजी	शुक्		188	1. शरणप्पा, पुत्र बसप्पा हुगर 2. आन्दनप्पा, पुत्र बसप्पा हुगर
			12/A	निजी	शुक् / सिधित		1155	1. मल्लिकार्जुन, पुत्र वीरुप्पाप्पा हारलपुर, हिरवाकलाकुन्टा (प्लेज दू सिडिकेट बैंक कुस्तगी) 2. कान्तेप्पा, पुत्र भीमप्पा हरिजन, हिरवाकलाकुन्टा
			13/1	निजी	शुक् / सिधित		789	1. येमनचाली उपेन्द्र गोपाला राव (प्लेज दू पीएससी और वीएसएसएन हिरवाकलाकुन्टा) 2. वीरुप्पाप्पा, पुत्र ईशप्पा (प्लेज दू वीएसएसएन हिरवाकलाकुन्टा) 3. माल्लप्पा, पुत्र ईशप्पा 4. बसवन्तप्पा, पुत्र ईशप्पा बनगेरी (प्लेज दू वीएसएसएन और पीएससी हिरवाकलाकुन्टा)
			14/B	निजी	शुक् / सिधित		456	1. गौरव्वा, पत्नी ईरप्पा कनकगिरी 2. वी. कट्टे बसप्पा, पुत्र इश्वरगीडा जोगा
			15/1	निजी	शुक् / सिधित		514	1. शिवानन्दप्पा, पुत्र बसप्पा सज्जन, हिरवाकलाकुन्टा (प्लेज दू वीएससी हिरवाकलाकुन्टा) 2. करधन्धन्, पुत्र महेन्गु राम शर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/AA	निजी	शुष्क / सिंचित	811	1. शरणम्पा, पुत्र भीमसेपा 2. हनुमम्पा, पुत्र भीमसेपा [प्लेज दू पीएसएससी हिरेवांकलाकुन्टा] 3. वीरनगीडा, पुत्र शिवनगीडा काई
		5. गुन्नाल		25	निजी	सिंचित	23	1. निगम्पा, पुत्र महन्तम्पा जीर [प्लेज दू एसबीआई कोपल] 2. बालम्पा, पुत्र हिरेमहन्तम्पा जीर [प्लेज दू एसबीएम कोपल] 3. शरणम्पा, पुत्र सन्ना महन्तम्पा जीर
				26/A	निजी	शुष्क / सिंचित	203	1. शरणम्पा, पुत्र यमनम्पा गदागी 2. सावित्रम्पा, पत्नी ईशम्पा [प्लेज दू एसबीएम कोपल] 3. शरणम्पा, पुत्र अमरम्पा [प्लेज दू एसबीएम कोपल] 4. भीमम्पा, पुत्र बसम्पा अल्लाल्ली 5. पात्रम्पा, पुत्र शंकरम्पा एमजी शंकरम्पा बालम्पा 6. सावित्रम्पा, पत्नी ईशम्पा 7. शैलम्पा, पत्नी शरणम्पा 8. भीमम्पा, पुत्र बसम्पा अल्लाल्ली 9. बन्दम्पा, पुत्र ईशम्पा, गुन्नाल 10. महादेवम्पा, पुत्र शंकरम्पा ममानी [प्लेज दू पीजीबी हिरेवांकलाकुन्टा] 11. राघवेन्द्राचार्य, पुत्र स्वामीराचार्य जोशी
				12	निजी	शुष्क	1416	1. निगम्पा, पुत्र हुब्बम्पा इंगलदाल 2. जगदीश, पुत्र फकीरम्पा इंगलदाल [प्लेज दू वीएसएसएन वेवुर]
				11/1A	निजी	शुष्क	4605	1. अन्नपूर्णम्पा, पत्नी मलियम्पा बाडिगेर [प्लेज दू वीएसएसएन वेवुर] 2. श्रीनिवास राव, पुत्र राम राव हुलीहयाडर 3. प्रदीप कुमार, पुत्र मोहनलाल [प्लेज दू पीजीबी हिरेवांकलाकुन्टा]
				10/6	निजी	शुष्क	59	सन्ना शान्तम्पा, पत्नी यमनम्पा
				167	निजी	शुष्क	319	1. गीताबाई, पुत्र रागम्पेया देसाई 2. मल्लिकार्जुन, पुत्र रुद्र गीडा केन्चम्पनवर
				160	निजी	शुष्क	680	1. करियम्पा, पुत्र हनुमम्पा 2. यमनम्पा, पुत्र बसम्पा 3. महन्तम्पा, पुत्र बालम्पा 4. बसम्पा, पत्नी बसम्पा 5. मरियम्पा, पुत्र फकीरम्पा जीर
				142	निजी	शुष्क	351	1. वासुदेव, पुत्र रामम्पा वाल्मिकी 2. विठोब, पुत्र रामम्पा वाल्मिकी 3. नागम्पा, पुत्र रामम्पा वाल्मिकी 4. नारायण, पुत्र रामम्पा वाल्मिकी 5. वेंकटेश, पुत्र रामम्पा वाल्मिकी 6. कृष्णम्पा, पुत्र हनुमम्पा वाल्मिकी [प्लेज दू पीएलडीबी वेलबुर्गी] 7. प्रह्लाद, पुत्र हनुमम्पा वाल्मिकी
				140/1AA	निजी	शुष्क	134	निगम्पा, पुत्र यकम्पा फकीरम्पा, पुत्र यकम्पा
				141	निजी	शुष्क	114	निगम्पा, पुत्र यकम्पा फकीरम्पा, पुत्र यकम्पा
				139/2A	निजी	शुष्क	351	1. शारदम्पा, पत्नी बसवराज नेलजरी 2. अश्विनीकुमार शर्मा, पुत्र नेकचन्द शर्मा 3. भोगम्पा, पुत्र नेमन्ना दानी, गुन्नाल
				137/1-1	निजी	शुष्क	27	1. नागम्पा, पुत्र संकम्पा, एमजी रेकम्पा इंगलदाल 2. कुलविन्दर सिंह, पुत्र अन्वर सिंह
				130/A1	निजी	सिंचित	3654	1. राम्पुम्पा, पुत्र यमनम्पा गुडागी 2. चिन्नम्पा, पुत्र यमनम्पा गुडागी 3. मंजम्पा, पुत्र यमनम्पा गुडागी 4. बसम्पा, पुत्र परम्पा 5. हनुमम्पा, पुत्र भीमम्पा कोरवार 6. मुदुम्पा, पुत्र भीमम्पा कोरवार [प्लेज दू पीएलडीबी] 7. नागम्पा, पुत्र यमनम्पा गुडागी 8. देवम्पा, पुत्र दयामम्पा नेलजरी
		7. म्यादनेरी		11/A	निजी	शुष्क	2107	निगम्पा, पुत्र दयामम्पा मेली
				15/A	निजी	शुष्क	92	1. निगम्पा, पुत्र आडवी हनुमम्पा 2. हनुमम्पा, पुत्र निगम्पा एमजी आडवी हनुमम्पा
				23	निजी	शुष्क	853	अक्कम्पा, पत्नी रामनगीडा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24/U	निजी	शुष्क	2724	1. हनुमप्पा, पुत्र निगप्पा कुदरीकोटगी [प्लेज दू वीएसएसएन बेनूर] 2. दयामप्पा, पुत्र बालप्पा 3. हनुमप्पा, पुत्र हनुमप्पा
				25/1&2	निजी	शुष्क	1764	1. एस. नरसप्पा, पुत्र सन्ना नरसप्पा काशी वातपरावी 2. यकप्पा, पुत्र सन्ना नरसप्पा
				26/3	निजी	शुष्क	2596	1. दयामप्पा, पत्नी शैकप्पा 2. शान्तप्पा, पत्नी संगप्पा नेलजेरी 3. दयामप्पा, पुत्र गुण्डपपा मेती
				29/AA1	निजी	शुष्क	3157	1. शंकरप्पा, पुत्र दयामप्पा मेती 2. बसप्पा, पुत्र दयामप्पा मेती
				40	निजी	शुष्क	3256	1. गुरुराज राव, पुत्र वासुदेव राव देसाई 2. राघवेन्द्र राव, पुत्र वासुदेव राव 3. अनन्त राव, पुत्र वासुदेव राव देसाई
				41/EE	निजी	शुष्क	214	1. निगप्पा, पुत्र केन्दप्पा 2. दयामप्पा, पुत्र मुदुकप्पा 3. माइलरप्पा, पुत्र मुदुकप्पा 4. बसप्पा, पुत्र दयामप्पा 5. सन्ना निगप्पा, पुत्र बसप्पा कुदरीकोटगी
				39/A	निजी	शुष्क	2681	1. इरप्पा, पुत्र शंकरप्पा 2. हनुमन्तप्पा, पुत्र यकप्पा पुजारी 3. गुरुराज राव, पुत्र वासुदेव राव देसाई 4. राघवेन्द्र राव, पुत्र वासुदेव राव 5. अनन्त राव, पुत्र वासुदेव राव देसाई
				38/E	निजी	शुष्क	3740	1. दयामप्पा, पुत्र यकप्पा देवरामनी [प्लेज दू वीएसएसएन बेनूर] 2. मंजुनाथ, पुत्र शंकरप्पा वाटपानी 3. बी. सत्यनारायणा शेट्टी, पुत्र लिगीया शेट्टी
			8. कोवाहल्ली	15	निजी	शुष्क	451	1. हनुमप्पा, पुत्र बालप्पा धिलकमुक्की 2. रामप्पा, शंकरप्पा, पुत्र हिरे हनुमप्पा
				16	निजी	शुष्क	449	1. नरमप्पा मुदुकप्पा इगलदाल 2. पम्पन गौडा, पुत्र नारायण गौडा स्वागी 3. बालप्पा, पुत्र मुदुकप्पा इगलदाल
				19/A1	निजी	शुष्क	289	1. रत्नप्पा, पत्नी शिवप्पा नीलगर 2. सोमप्पा, पुत्र शिवप्पा इगलदाल 3. शरणप्पा, पुत्र हालियप्पा
				20/AA	निजी	शुष्क	232	1. नीलाकान्तप्पा, पुत्र शिवप्पा 2. नागराज, पुत्र मुदुकप्पा इगलदाल
				23/A	निजी	शुष्क	285	1. निगप्पा, पुत्र नीलप्पा चुक्काडी 2. गुरुनाथसा, पुत्र धर्मा रू. दानी
				24/A	निजी	शुष्क	1152	1. निगप्पा, करादेप्पा, पुत्र शरबन्ना मुलिमानी 2. पी. अनुराधा, पत्नी पी. प्रभाकर शेट्टी 3. जाम्बप्पा, पुत्र निगप्पा मुलिमानी 4. सत्या नारायण शेट्टी, पुत्र लिगीया शेट्टी 5. गंगप्पा, पत्नी माइलरप्पा
				27/EE	निजी	शुष्क	1396	1. इरप्पा केम्प हनुमप्पा हरिजन 2. कनकप्पा, पुत्र भीमप्पा हरिजन
		3. कुस्तगी	1. कुरुबनाल	12/1-1	निजी	शुष्क	88	शैलेश शशिकान्त सरस्वती, पुत्र शशिकान्त दत्तात्रे सरस्वती तारकलकट्टे
				17	निजी	शुष्क	692	1. फकीरप्पा, पुत्र भीमप्पा 2. बालप्पा, पुत्र हनुमप्पा 3. निगप्पा, पुत्र होनकरप्पा 4. राजिया बेगम, पुत्री इब्राहिमसाब 5. होनकरप्पा, पुत्र फकीरप्पा
				13	निजी	शुष्क	715	1. वीरूपप्पा, पुत्र संगप्पा हनुमसागर 2. लाक्षमप्पा, पुत्र संगप्पा हनुमसागर 3. संगप्पा, पुत्र हनुमप्पा
				15	निजी	शुष्क / सिधित	540	1. वीरमदप्पा, पुत्र बसप्पा 2. शरणप्पा, पुत्र हनुमप्पा
				3	निजी	शुष्क / सिधित	114	1. निजलिगप्पा, पुत्र सीपन्ना 2. दुगप्पा, पुत्र मरियप्पा 3. निजलिगप्पा, पुत्र सीपन्ना
			2. अण्णर बसापुर	37/2	निजी	शुष्क	2074	सोमप्पा, पुत्र चन्दप्पा लमनी
				38/1	निजी	शुष्क	2031	अम्बप्पा, पत्नी नानप्पा लमनी
				38/A	निजी	शुष्क	340	लसगिरियप्पा, पुत्र नेमप्पा लमनी, बोबुर थाण्डा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				38/A	निजी	सिंचित	1669	हनमप्पा, पुत्र नेमप्पा लमनी लमनी, बोडुर धाण्डा
				39	निजी	शुष्क	3392	1. तुलचप्पा, पुत्र तावरेप्पा लमनी, बोडुर धाण्डा 2. चन्द्रप्पा, पुत्र गोलप्पा लमनी 3. तावरेप्पा, पुत्र शंकरप्पा लमनी
				42/2P1	निजी	शुष्क	1429	विजय नायक, पुत्र फकीरप्पा नायक
				42/2P2	निजी	शुष्क	2362	शकुन्तलप्पा, पत्नी विजय नायक
				42/2P2	निजी	सिंचित	167	शकुन्तलप्पा, पत्नी विजय नायक
			3. नदुवलकोप्पा	9/4	निजी	शुष्क	1455	पुष्पा सिंह, पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित
				9/EE	निजी	शुष्क	900	माल्लप्पा, पुत्र राधप्पा अली
				9/AA	निजी	सिंचित	2681	लक्ष्मप्पा, पुत्र दुर्गाप्पा
				9/3	निजी	सिंचित	996	करियप्पा, पुत्र दुर्गाप्पा गोल्लार (प्लेज विद पीजीबी)
				9/E E	निजी	सिंचित	396	1. हनुमप्पा, पुत्र यंकप्पा, काडेकोप्पा 2. कंकप्पा, पुत्र यंकप्पा, काडेकोप्पा
				9/1	निजी	सिंचित	175	पुष्पल सत्या नारायण, पुत्र पी. वीरैया, केरेहल्ली (डिप्टी मैनेजर एसबीआई होस्पेट प्लेज)
				9/AA	निजी	सिंचित	1443	नूरजा बेगम, पत्नी हसनसाब धोतीहाल
				13/4/1	निजी	शुष्क	4012	बसवराज, पुत्र चन्द्रशेकरैया एमजी चन्द्रैयाशेकरैया, पुत्र महन्तैया इगलगी
				13/A	निजी	शुष्क	4218	चन्नबसैया, पुत्र गंगैया एमजी गंगैया इगलगी हुनगुन्दा
			4. काइदीगुप्पा	12	निजी	शुष्क	8988	1. रामलिंगप्पा, पुत्र भरियप्पा गुगलमारी 2. शान्तप्पा (एडोप्टेड), पुत्र बसप्पा मुसीगेरी 3. सागरप्पा, पुत्र शिददप्पा हिरेकोडगली 4. कुमारी राम्या, पुत्री पाण्डुरंग शेट
				14/A	निजी	शुष्क	2223	1. मानप्पा, पुत्र बसप्पा कम्मर (पट्ट) 2. यलगुरडप्पा, पुत्र बालप्पा तलवार
				15/A P1/2	निजी	शुष्क	651	1. नागप्पा, पत्नी यलगुरडप्पा तलवार 2. डोड्डप्पा, पुत्र करियप्पा तलवार 3. रेखप्पा, पुत्र लोकप्पा लमनी
				7	निजी	शुष्क / सिंचित	3175	1. हनुमप्पा, पुत्र लक्ष्मप्पा बेलेरी 2. डोड्डप्पा, पुत्र करियप्पा 3. यलगुरडप्पा, पुत्र करियप्पा 4. गंगप्पा, पत्नी कंकप्पा 5. हनुमप्पा लक्ष्मप्पा बेलेरी 6. हनुमप्पा, पुत्र सन्ना यलगुरडप्पा 7. बालप्पा, पुत्र सनना यलगुरडप्पा 8. सन्ना धीरप्पा, पुत्र सनना यलगुरडप्पा
				167/3	निजी	शुष्क / सिंचित	75	1. सुशिला बाई, पत्नी हनमन्त राव देसाई 2. धीरुमला राव, पुत्र हनमन्त राव देसाई
				123/1A	निजी	शुष्क / सिंचित	1171	शिददप्पा, पुत्र बसप्पा भजन्त्री
				122	निजी	शुष्क / सिंचित	3187	1. मल्लिकार्जुन, पुत्र देवरेदप्पा चलगेरी [प्लेज दू पीजीबी बैंक] 2. हनुमप्पा, पुत्र भरमप्पा 3. अब्दुल रज्जाक, पुत्र कासीम अली यानीबन्द
				117/3	निजी	शुष्क / सिंचित	5250	गणपति, पुत्र नारायण राव देसाई
				119/1, 1P	निजी	शुष्क / सिंचित	2287	1. आशा, पत्नी शिवकुमार कम्मर 2. मुदी रंगप्पा, पुत्र बसप्पा पट्टार
				119/2	निजी	शुष्क / सिंचित	3431	1. शिवकुमार, पुत्र मुदी रंगप्पा 2. राशीदा बानु, पत्नी मो. इक्बाल 3. शिवकुमार, पुत्र मुदी रंगप्पा कम्मर
				119/3, 3A	निजी	शुष्क / सिंचित	1837	1. कमला बाई, पत्नी वीरभद्रप्पा 2. शंकरप्पा, पत्नी बसप्पा पट्टार 4. मुक्तुम साब, पुत्र राजेसाब पिजर
			5. कडेकोप्पा	4	निजी	सिंचित	2596	शरणगोडा, पुत्र राघनगोडा पोलिस पाटिल (प्लेज विद धोतीहाल पीजीबी)
				5/8A	निजी	शुष्क	3124	शरणगोडा, पुत्र राघनगोडा पोलिस पाटिल (प्लेज विद धोतीहाल पीजीबी)
				6/9	निजी	शुष्क	1421	शिवपुत्रप्पा, पुत्र निगप्पा काधी
				6/8	निजी	शुष्क	156	शिवपुत्रप्पा, पुत्र निगप्पा काधी
				6/3/P	निजी	शुष्क	100	1. होलियप्पा, पुत्र मल्लप्पा बालेकर 2. हनुमप्पा, पुत्र मल्लप्पा बालेकर 3. शंकरप्पा, पुत्र मल्लप्पा बालेकर
				6/2,4P2	निजी	शुष्क	193	1. हनुमप्पा, पत्नी यल्लप्पा बालेकर 2. हनुमन्तप्पा पिड्डप्पा मेती [प्लेज दू सिडिकेट कुस्तागी]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/1/A	निजी	शुष्क	1049	मलियप्पा बसप्पा
				6/1/A	निजी	शुष्क	468	1. हनुमन्तप्पा पीदवप्पा मेती 2. कमलम्मा, पुत्री वालेप्पा राठीड 3. रेमन्ना, पुत्री वालेप्पा राठीड 4. देवम्मा, पुत्री वालेप्पा राठीड 5. बालम्मा, पुत्री वालेप्पा राठीड (प्लेज विद सिंडिकेट बैंक कुस्तगी)
				7/1A2	निजी	सिंचित	2084	1. महम्मद इक्बाल, पुत्र हुसैनसाब हक्की 2. यनकन्ना, पुत्र मेलगिरी दलबनजास
				9/1A/1	निजी	सिंचित	790	1. दयामन्ना, पुत्र होन्नप्पा 2. रामप्पा, पुत्र होन्नप्पा
				9/2AA	निजी	सिंचित	756	होन्नप्पा यमनप्पा एमजी यकब्बा, पत्नी यमनप्पा
				9/3	निजी	शुष्क	790	श्रीकात्तगीडा, पुत्र बरमगीडा पाटिल
				10/2.	निजी	शुष्क	212	1. सिंगनगीडा, पुत्र मल्लिकार्जुन गौडा 2. बसनगीडा, पुत्र मल्लिकार्जुन गौडा 3. नगरन्ना, पत्नी संगनगीडा पाटिल
				10/4	निजी	शुष्क	1905	राघन गौडा, पुत्र इरनगीडा
				10/3	निजी	शुष्क	1092	1. रुद्रगीडा, पुत्र चन्संगनगीडा पाटिल 2. शिवनगीडा, पुत्र चन्संगनगीडा पाटिल 3. पम्पनगीडा, पुत्र चन्संगनगीडा पाटिल 4. चन्सप्पा गौडा, पुत्र चन्संगनगीडा पाटिल
				24	निजी	सिंचित	2965	1. परसप्पा, पुत्र इरप्पा एमजी भाई परसप्पा 2. यल्लप्पा, पुत्र इरप्पा, एमजी परसप्पा 3. बसप्पा, पुत्र इरप्पा एमजी भाई परसप्पा 4. परसप्पा, पुत्र इरप्पा एमजी भाई परसप्पा
				23/5	निजी	सिंचित	968	शिवानन्द, पुत्र अप्पाजी, इलकल
				23/6	निजी	सिंचित	1401	शिवानन्द, पुत्र अप्पाजी, इलकल
				26/AA	निजी	सिंचित	1828	निगप्पा, पुत्र संगप्पा अरर
		6. वनागरी		84	निजी	सिंचित	2514	1. हनुमप्पा, पुत्र पीरप्पा राठीड 2. फकीरप्पा, पुत्र रुद्रप्पा लमनी
				82	निजी	शुष्क / सिंचित	4584	1. पोमप्पा, पुत्र गोपन्ना उर्फ गोवप्पा लमनी 2. रवि कुमार, पुत्र सदानदप्पा पालनकर [प्लेज दू वीएसएसएन तलुवगेरा] 3. यमनप्पा, पुत्र गोपन्ना 4. हनुमप्पा, पुत्र लाचमप्पा 5. शंकरप्पा, पुत्र बसप्पा राजुर 6. शरणम्मा, पत्नी अमरेश इचनल
				74/2	निजी	शुष्क / सिंचित	13686	यमनप्पा, पुत्र भीमप्पा तलवार (हिस्सेदार-कालकप्पा 2) दयामन्ना)
				70/1	निजी	शुष्क / सिंचित	4820	रविकुमार, पुत्र सदानदप्पा पालनकर [कब्जादार - लक्ष्मीबाई]
				57	निजी	शुष्क / सिंचित	3230	1. गददेप्पा, पुत्र हिरयन्ना 2. शान्तप्पा, पुत्र राजप्पा 3. यमनप्पा, पुत्र भीमप्पा (हिस्सेदार-1) कालकप्पा 2) दयामन्ना, पुत्र भीमप्पा) 4. गुरुसंगनगीडा, पुत्र अमरेगीडा बोडुर 5. यशोदा, पत्नी शरणप्पा गोरेबाल (प्लेज दू टीजीबी कुस्तगी)
				55/E	निजी	शुष्क / सिंचित	234	तोप्पन्ना, पुत्र मारेगीडा
				52	निजी	सिंचित	5999	1. हनुमन्ना, पत्नी फकीरप्पा 2. नीलम्मा, पत्नी पचकशारियाह हिरमठ [प्लेज दू सिंडिकेट बैंक कुस्तगी]
				51/2	निजी	सिंचित	5290	1. भीमप्पा, पत्नी हनुमप्पा हरिजन 2. हनुमप्पा, पुत्र यमनप्पा हरिजन 3. होलियप्पा, पुत्र पम्पप्पा मंगलमानी 4. मरियप्पा, पुत्र जादियप्पा हरिजन 5. राजुसिंह, पुत्र बोकल सिंह राठीड
				16	निजी	सिंचित	6955	1. परसप्पा, पुत्र मुदिबसप्पा 2. छत्रप्पा, पुत्र मुदिबसप्पा 3. हनुमन्ना, पत्नी हनुमन्ना
				234	निजी	सिंचित	562	अरलप्पा, पुत्र श्यामन्ना इलिंगेर
				235/2	निजी	सिंचित	3075	भीमनगीडा, पुत्र श्यामन्ना इलिंगेर [हिस्सेदार - शिवप्पा, पुत्र नारायणप्पा राजप्पा, पुत्र भीमनरे]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				211/1	निजी	सिधित	1489	1. चन्द्रम्मा, पत्नी गङ्गनेसाब नदक 2. ललिता, पत्नी नागप्पा होसा विक्कात 3. अन्नपुर्णा, पुत्र कामन्ना कामन्वर 4. बालप्पा, पुत्र यंकप्पा यरगेरी 5. चन्द्रशेखर, पुत्र हनुमन्ताप्पा कौनसागर
			7. कुस्तगी	246	निजी	शुष्क	475	1. इरम्मा, पत्नी चन्नबसप्पा 2. संगमेश, पुत्र मल्लिकार्जुना चत्तोर 3. कोटरम्मा, पत्नी बसप्पा चत्तोर
				251	निजी	शुष्क	2839	1. यमनम्मा, पत्नी कानुम्मा 2. संगम्मा, पत्नी नागप्पा
				209	निजी	शुष्क	5631	1. हुसैनसाब, पुत्र गिददा हुसैनसाब 2. मोहम्मदसाब उर्फ बाशु, पुत्र गिददा हुसैनसाब 3. वीरसाब, पुत्र शंकरप्पा तारुकनी 4. पीरसाब, पुत्र खारीमसाब बैडराकोटे 5. सुवर्णा, पत्नी रविन्द्र पट्टनशेट्टी 6. राजेन्द्र, पुत्र विनायक श्रीगवाकर 7. बुवदिदनसाब, पुत्र हुसैनसाब 8. मङ्गुबसाब, पुत्र हुसैनसाब 9. मोधिनबी, पत्नी बाबुसाब 10. बुद्धनेसाब, पुत्र बुद्धनेसाब 11. खासीमबी, पत्नी कासीमसाब 12. सन्ना दवालसाब, पुत्र हुसैनसाब 13. जुलेखा बेगम, पत्नी हिरे - दावलसाब
				210/C/B	निजी	शुष्क	749	लक्ष्मन्ना राव, पुत्र गुरुभीमा राव मुकुन्दराव [प्लेज दू कॉ-ऑप बैंक इलकल]
				207/2	निजी	शुष्क	1687	कालकप्पा, पुत्र कोटरेप्पा नायकवाडी
				206	निजी	शुष्क	32	1. के. महेश, पुत्र शरणप्पा 2. प्रकाश, पुत्र चन्नप्पा रेवनकर 3. विजया, पत्नी प्रकाश रेवनकर 4. शरणम्मा, पत्नी धीमनगीडा पाटिल 5. सरोजम्मा, पत्नी अशोक बाबुटगी 6. नागराज, पुत्र चन्द्रशेखरप्पा कन्डगल 7. नारायणप्पा, पुत्र नरसप्पा कोम्पटर गेज्जालगट्टी 8. बियाबी, पत्नी धुडुसाब धोतीहाल 9. हसनसाब, पुत्र नबीसाब धोतीहाल 10. इमामबी, पत्नी खासीमसाब सिरवार 11. रविकुमार पुत्र सदानन्द पालनकर
				55	निजी	एनए / शुष्क	160	1. सुब्बाराव, पुत्र हनुमन्त राव सेट्टी 2. दुर्गाप्पा, पुत्र मुडुकप्पा संगती 3. चन्द्रम्मा, पत्नी बसप्पा होसुर
				60	निजी/सरकारी	एनए / शुष्क	1667	1. सिद्धैया, पुत्र रुद्रैया कम्पपुरमठ 2. नीलम्मा, पत्नी बसैया कम्पपुरमठ 3. के. आई ए. डी. बी. गुलबर्गा
				61	सरकारी	एनए / शुष्क	1195	के. आई ए. डी. बी. गुलबर्गा
				68/1	सरकारी	एनए	359	टीएमसी कुस्तगी
				68/2	निजी	एनए	680	1) के. पद्मा, पत्नी के. केशव रेड्डी 2) टीएमसी कुस्तगी
				69	निजी	एनए	140	1. मुदियल्लप्पा, पुत्र बालप्पा कट्टीहोलाद 2. हनुमन्मा, पत्नी निगप्पा 3. हन्नप्पा, पुत्र बालप्पा 4. मसम्मा, पत्नी रामप्पा संगती 5. आदावी राव राघवेन्द्र राव तीकोटीकर 6. एम. हुसैनबी, पत्नी फकीरप्पा
				78	निजी	एनए	3165	1. पार्वतेम्मा, पत्नी यमनप्पा गङ्गडी 2. ग्यानप्पा, पुत्र यमनप्पा गङ्गडी 3. जाम्बन्ना, पुत्र मद्रप्पा शेटरा 4. संगप्पा, पुत्र वीरप्पासाब 5. हनुमन्मा, पत्नी नरसैया 6. शिवराज, पुत्र शरणप्पा
				273	सरकारी	एनए / शुष्क	468	टीएमसी कुस्तगी गायत्री, पत्नी रेकन्ना जोशी (लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्याभियाँ के नाम अंकित हैं) धीम्मय्या, पुत्र भीमय्या
कुल योग:							635539	

[फा. सं. भारराप्रा/11013/01/209-एलए/केआरटी/धारवाड़]

सुमेर सिंह गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2010

S.O. 2737(E).— Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 2985 (E)** dated the **24th November, 2009**, and **S.O. 1817(E)**, dated the **23rd July, 2010**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notifications for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 13 on the stretch of land from **Km.218.000 to Km.295.700 (Hungund-Hospet Section)** in District Koppal in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notifications has been published in “Vijaya Karnataka” and “Indian Express,” both the **30th December, 2009** and in “Vijaya Karnataka” and “Times of India” both dated **8th September, 2010**, respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.218.000 to Km.295.700 (Hunagund - Hospet Section) of the National Highway No. 13 in the State of Karnataka.

Sérial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area(in Square metres)	Name of the interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Koppal	1. Koppal	1. Chilakamuki	24/1	Private	Dry	3000	1. Sharada W/o Shankargowda. 2. Shankar Gowda S/o Balan Gowda
				25/1	Private	Dry	1300	1. Ansakka W/o Basangowda 2. Shankargowda S/o Balanagowda
			2. Hiresulikeri	63/AA	Private	Dry	4085	1. Sakrappa S/o Ramachandrappa Lamani 2. Lokappa S/o Peerya 3. Harijitsingh S/o Santoshsingh
			3. Hosur	68/1A	Private	Dry	70	1. Manjunath S/o Ratnappa Badiger. 2. Karibasappa S/o Giddappa Chilakamukki. 3. Hanumantappa S/o Karibasappa [Pledged to VSSN Irakalagada]
				66/A	Private	Dry	4021	1. Virupanna S/o Erappa Gulaki 2. Hanumantappa S/o Erappa Gulaki 3. Syed Raja Hussain S/o Syed Hussain Sab (Kabjadar Ujagersing) [Pledged to SBI Munirabad]. 4. Yankappa S/o Yankappa M/G Yankappa [Pledged to SBI Munirabad]. 5. Geetha W/o Girish Kanavi 6. Balavva W/o Somalingappa 7. S. Khadarsab S/o Syedsabul Hasan 8. Gangappa S/o Erappa Gulli 9. Mallappa S/o Erappa Gulli 10. Syed Khadar Basha S/o Khasim Sab
				56/E	Private	Dry	1325	1. Yamanappa S/o Lachamappa R/o Chilakamukki [Pledge to PLDB Koppal] 2. Narayana Das S/o Mohanlal Lathi R/o Kinnal
				57/A	Private	Dry	3414	1. Hanumavva W/o Balappa Harijan 2. Huligeppa S/o Parasappa 3. Gangavva W/o Durugappa.
				52/AA	Private	Dry	30	1. Yankappa S/o Sanna Yamanappa 2. Dharmappa S/o Sanna Yamanappa M/G Mother Hanumavva [Pledge to Syndicate Bank Koppal] 3. Shekarappa S/o Bheemappa Badiger
				67/AA	Private	Dry	1824	1. Gavisiddappa S/o Sanganna Karadi 2. Virupanna, Hanumappa S/o Erappa Guliki 3. Balavva W/o Somalingappa
				51/1	Private	Dry	130	1. Shekargowda S/o Eshappa Gowda 2. Manjunath S/o Lakshmana Arakeri 3. Kabjadar-Erangowda Narasimha
				55	Govt.	Dry	502	1. Government (parampur) 2. Hanumavva W/o Yamanappa
				53	Govt.	Dry	5208	Goutamchand S/o Mithalalaji Chopra
			4. Boodgumpa	103	Private	Dry	11	1. K. Mallinath S/o Dodda Thippanna 2. Kariyappa S/o Kariyappa 3. B. Ravi S/o Sreenivas
				101/A	Private	Dry	76	1. Sanna Hanumappa S/o Huchchappa Karadi 2. Lalitha W/o A/V/Prasad 3. Sanna Hanumappa S/o Huchchappa Karadi 4. Shivaputramma W/o Hanumappa
				100/B	Private	Dry	275	1. Kariyappa S/o Yamanappa Sangati 2. Narayanappa S/o Yamanappa Sangati 3. Yamanappa S/o Ramappa Sangati 4. Mukappa S/o Kariyappa Sangati
				110/A	Private	Dry	5091	1. Pradeep S/o Eshwarappa Hangal 2. Shekarappa S/o Eshwarappa Hangal 3. Hanumappa S/o Goudappa Hyati 4. N. Sridhar S/o N. Subba Rao 5. Anuradha W/o B. N. Sridhar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92	Private	Dry	112	1. H.M Pavithra W/o H.M Veerupakshayya 2. Bharamappa W/o Yamanappa Sangati
				93	Private	Dry	1046	1. Venkatesh S/o Kambayya Illur [Pledged to Veera Pulakeshi Bank Koppal] 2. Sanna Ramalingappa S/o Jambanna
				84/A2	Private	Dry	1078	1. N.Sreedhar S/o Subba Rao 2. Bhagavantappa S/o Yenappa Kudrimothi 3. N.Anuradha W/o N.Sreedhar 4. Govardana Das W/o Kishan Das Periyar
				83	Private	Dry	260	Shivayya S/o Chandrashekarayya [Pledged to PGB Budugumpu]
				79	Private	Dry	708	1. Anni Mykal W/o K.J.Mykal 2. Eramma W/o Mudukappa Sangati 3. Meri W/o D.L.Raju
				63/5B	Private	Dry	8642	1. T.K.M Ismail S/o S.V.Kunhe Ahmad Haji 2. P.Khadeersab S/o Mammiasab
				105	Govt	Dry	13	Government of Karnataka ROR
			4. Hosahalli	8/2	Private	Dry	309	1. Vijaykumar S/o Veerabasappa Pattanashetty 2. Sudeshkumar S/o Veerabasappa Pattanashetty 3. Vithobanna S/o Yankanna Chitralli
				10/1	Private	Dry	48	1. Ningamma W/o Sanganna Karadi 2. Gavisiddappa S/o Sanganna Karadi 3. Sanganna S/o Amarappa Karadi
			5. Metagal	11	Private	Dry	1556	Jitendra S/o Madanlal Bansali
				9/A1	Private	Dry	1352	1. Basawaraj S/o Adeppa Obalabandi 2. Sharanappa S/o Shivappa [Pledged to SBI Munirabad] 3. Honnappa S/o Shivappa
				84	Private	Dry	213	Mothilal S/o Muralidharsa Katwa
				90/A	Private	Dry/ Irrigated	247	1. Sharanappa S/o Gurappa 2. Amaresh S/o Adeppa Obalabandi 3. Honnappa S/o Shivappa
				77/A	Private	Dry/ Irrigated	4482	1. Kotrappa S/o Siddappa Sangal 2. Basawaraj S/o Channappa Sanganal 3. Shivamma W/o Gurubasappa Sanganal
				51/1 51/3	Private	Dry/ Irrigated	4202	1. Basaiah S/o Patraiah 2. Meethalal S/o Bhagawan Chandaji Chopra
				49	Private	Dry/ Irrigated	1173	1. Dwaraka Swami S/o Revanasiddaiah 2. Virupakshaiah S/o Karabasaiah 3. Poornendra Swamy S/o Karabasaiah [Pledged to PGB Irakalagada] 4. Rudraiah S/o Karabasaiah R/o Metagal
				52	Private	Dry/ Irrigated	81	1. Virupakshaiah S/o Sanna Basaiah 2. Shivamurthaiah S/o Sanna Basaiah 3. Channabasaiah S/o Veerabhadraiah 4. Onkarsingh S/o Pyarasingh Koppal 5. Channaiah S/o Sangaiiah Mantageri 6. Revaiah S/o Sangaiiah Mantageri 7. Basaiah S/o Sangaiiah 8. Veerabasamma W/o Sharanaiiah
				66/AA2	Private	Dry/ Irrigated	249	1. Mallappa S/o Nagappa 2. Mudukappa S/o Malakajappa 3. Adeppa S/o Malakajappa 4. Gulappa S/o Dyamappa Halageri 5. M. Ramachandra Raju S/o Appala Raju
				57	Private	Dry/ Irrigated	1190	1. Shivappa S/o Gurubasappa Sanganal 2. Gulappa S/o Gurubasappa Sanganal 3. Shantamma W/o Shivanandappa Sanganal
				65/A	Private	Dry /Irrigated	151	Veerupakshaiah S/o Karibasaiah
			6. Jinapur	30/A	Private	Dry/ Irrigated	279	1. Hanumappa S/o Rupachandrappa Lamani 2. Baramappa S/o Rupachandrappa Lamani [Pledged to PGB Irakalagada] 3. Komareppa S/o Pandurangappa Pujari
				21/2+1	Private	Dry	262	1. K. Eranna S/o Ramachandra Rao Kalyani 2. K.Venkatesh S/o Ramalinga Rao Kalyani
			7. Amarapur	29/A	Private	Dry	3740	1. H.G Ramalu S/o H.R.Gaviyappa 2. H.R Srinath S/o H.G Ramulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				28/2A	Private	Dry	3783	Mohindar Sing S/o Sardar Borasingh
				25	Govt	Dry	2425	Govt Land (Parampok)
			8. Vana Ballary	95/B	Private	Dry	1038	1. Hanamappa Bharamappa Arashinkera [Pledged to SBI Munirabad & SBM Koppal] 2. Mallappa S/o Mallappa Arashinkera
				101/1	Private	Dry	70	Govt Land (Parampoke)
			9. Shahapur	27/A	Private	Dry	1558	1. Hanumappa S/o Kare Yallappa Budabudaki 2. Shreedhar S/o N. Subba Rao Guladalli 3. Kolurappa S/o Hanumappa Joshi 4. Mallikarjuna S/o Veerappa Joshi 5. Bharamappa S/o Mariyappa Bellad [Pledged to SBM Munirabad]
				17/1	Private	Dry	1814	1. Kolurappa S/o Hanumappa Joshi 2. Krishna S/o Veerappa Joshi [Pledged to SBM Munirabad] 3. Manjunath S/o Bheemappa 4. Lakshmauva W/o Bheemappa Kambli 5. Fakeerappa S/o Parasappa Joshi [Pledged to SBM Munirabad] 6. Iqbal Husain D.B. S/o D.M Basheer Basha 7. Parameshwara S/o Kolurappa Budabudaki
				18	Private	Irrigated	1810	M. Balachandra S/o P. Muttuswamy [Pledged to VSSN Agalakera]
				42	Private	Irrigated	2286	1. Yallappa S/o Ningappa Chowdki 2. Ramappa S/o Hulugappa Chowdki 3. Mallawwa W/o Dodda Ningappa Chowdki 4. Ramanna S/o Sanna Ningappa Chowdki 5. Narayana S/o Ananthacharya Balur
				43	Private	Irrigated	495	1. Mallawwa W/o Ningappa Chowdki 2. Ramanna S/o Sanna Ningappa Chowdki
			11. Kukanapalli	175/AA	Private	Dry	2682	1. Hanumappa S/o Mallappa Hosalli [Pledged to SBH Koppal] 2. Ningappa S/o Mallappa Hosalli [Pledged to SBH Koppal] 3. Shivappa S/o Mallappa Hosalli [Pledged to SBH Koppal]
				178/AAP2	Private	Dry	1422	1. Kariyappa S/o Mallappa Ballary 2. Kulavindarsingh S/o Achchara Singh 3. Neelappa S/o Thotappa 4. Ningappa S/o Hulugappa Hosalli
				180/A1	Private	Dry	523	1. Gudneppa S/o Basappa 2. Shivappa S/o Amarappa 3. Veerupakshappa S/o Basappa Kudlur
				182	Private	Irrigated	432	1. Viruapanna S/o Eshwarappa Harala 2. Gurappa S/o Ningappa Aarala [Pledged to SBI Munirabad] 3. Amarappa S/o Ningappa Aarala 4. Basappa S/o Ningappa Aarala [Pledged to SBI Munirabad]
				185	Private	Irrigated	599	Basawaraj S/o Veerupakshappa Kulkarni [Pledged to S.B.M Munirabad]
				2/EE	Private	Dry	170	Veerupakshappa S/o Bada Amarappa
				111	Private	Dry	940	1. P.Kiran Kumar S/o Bhaskar Reddy 2. G.Hampanna S/o Basappa Hosakeri
				110	Private	Dry	11	Ningangowda S/o Yankangowda
				67/A2	Private	Dry	287	1. Amarappa S/o Ningappa Baganal 2. Pompanna S/o Ningappa Metagal
				65/1	Private	Dry	5454	1. Yamanappa S/o Mukkalappa 2. Huligeuva W/o Yamanappa 3. Yellappa S/o Yellappa [Pledged to SBM Munirabad]
			12. Kerehalli	1/A	Private	Dry	53	1. Bhojangowda S/o Ningangowda 2. Betadappa S/o Hanumappa 3. Krishnappa S/o Sanneppa
				19/B	Private	Dry	2584	N.Shreedhar S/o N. Subbarao [Pledged to SBM & SBI Koppal]
				83	Private	Dry	600	1. Sanna Hanumappa S/o Kadappa 2. Lakshmidivi W/o C.V.Chandrashekar [Pledged to PGB Hitnal]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82	Private	Dry	2724	1. Hanumappa S/o Andigalappa Sindogi 2. Erappa S/o Andigalappa Sindogi 3. Jayappa S/o Andigalappa Sindogi (Kabjadar-Ramappa S/o Hanumappa Sindogi)
			13. Kasanakandi	1/2	Private	Dry/ Irrigated	3400	1. D. Shridhar S/o D. Koteswar Rao 2. Jitendra Kumar S/o Ashok Kumar Taleda
				2/A	Private	Irrigated	8700	1. Eshappa S/o Gulappa 2. Kalakappa S/o Gulappa
				4/4	Private	Dry	21300	1. Aslam Pasha S/o G. Dada Saheb Haji 2. G. Nooruddin S/o G. Dada Saheb Haji 3. Nashir Husain S/o G. Dada Saheb Haji 4. Md. Shafi S/o G. Dada Saheb Haji 5. Syfulla S/o G. Dada Saheb Haji
				5/2P	Private	Dry	19575	1. Y. Jothi W/o Y.V Mohan Rao 2. Siddavva W/o Phakirappa 4. Sumitra W/o Sudhakar Rao 5. P. K Hema W/o Sudhakar Rao P [Saguvalidar H. Jaganath]
				6/7	Private	Dry	12701	1. Y. Ravindra Rao S/o Y.V. Mohan Rao [Pledged to Bank of India Hospet] 2. Y. Jothi W/o Y.V Mohan Rao
				7/4	Private	Dry	10385	1. K. Purnachandra Rao S/o Venkayya 2. Y. Uma Maheshwar Rao S/o Mallayya
				9/1A	Private	Dry	8746	1. Ningappa S/o Balappa Kuri 2. H. Jaganath S/o H. Venugopal 3. H. Shrinivas S/o H. Venugopal 4. Mimaa Ahamad S/o Sufikutti
				10/3	Private	Dry	8808	1. Y. Ravindra Rao S/o Y.V. Mohan Rao [Pledged to Canara Bank Munirabad] 2. Yamanurappa S/o Manappa Jeer [Pledged to PGB Hitnal & VSSN Agalakere] 3. Gavisiddappa S/o Sharanappa. M/G Basawannevva W/o Shranappa 4. Basawaraj S/o Chennappa Hugar
			14. Hosalli - Lingapur	183	Private	Dry	856	Adam Sab S/o Imam Sab
				182/2	Private	Dry	832	1. Peera Husain sab S/o Raja Husain Sab 2. Ibrahim Sab S/o Raja Husain Sab [Pledged to VSSN Hosalli]
				184/2/1	Private	Dry	8	1. Basawaraj S/o Muddurao Patil 2. Ramanna S/o Muddurao Patil 3. H.S. Ramlingappa S/o Jambanna
				178/A	Private	Dry	1245	1. Pampangowda S/o Virupangowda Gaali [Pledged to Bank of Mysore] 2. Sanna Basappa S/o Virupangowda Gaali
				189	Private	Dry	668	Narendra Kumar Baladatta S/o Apparaj Baladatta
				177/A.1	Private	Dry	3687	Shamaji S/o Lalaji Patel
				176/1,2	Private	Dry	1635	1. Syed Jahidabi W/o Syed Khalilulla 2. Syed Muktarunnisa W/o Syed Munir Ahmad [Pledged to PGB Hitnal & VSSN Hosalli]
				175/2	Private	Dry	1039	1. Shivalingappa S/o Prabanna Agasar [Pledged to VSSN Hosalli] 2. Sulochanamma W/o Shivappa Agasar [Pledged to VSSN Hosalli]
				174/B P1	Private	Dry	1586	Phakiravva W/o Basappa Gaali [Pledged to VSSN Hosalli]
				197	Private	Dry	1303	Dairy Farm
			15. Hitnal	225/B	Private	Dry/ Irrigated	128	1. Gavisiddayya S/o Kotrayya Hiremath [Pledged to VSSN Agalakere] 2. Pakeeravva W/o Bharamappa [Pledged to VSSN Agalakere] 3. Honnoorsab S/o Nannesab Kaigaddi 4. Bheemappa S/o Suvvaleppa Hosalli
				224	Private	Dry/ Irrigated	210	1. Nityananda S/o Y. Veerupakshyya 2. Shobha W/o Nityanand [Pledged to Syndicate Bank Munirabad] 3. Veerupakshyya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214	Private	Dry/ Irrigated	60	Huligevva W/o Nagappa Arakeri [Pledged to TGB Hitnal]
				196/1	Private	Irrigated	1222	1. Pakeeravva W/o Benalappa Hitnal 2. Basamma W/o Basawaraj Kuyyappanavar [Pledged to TGB Hitnal]
				199/AA	Private	Irrigated	6560	1. Hanumappa S/o Siddappa Vaddra 2. Hanumavva W/o Rangappa Vaddar
				164	Private	Dry	885	Y. Raveendra Rao S/o Y. Mohan Rao Shivapur
				165/1	Private	Dry	7736	Y. Raveendra Rao S/o Y. Mohan Rao Shivapur
				163/BP1	Private	Irrigated	14610	1. Yellavva W/o Pakeerappa Naikar [Pledged to VSSN Agalakere] 2. Pushpa Rani W/o Ranabeersingh Peramar [Pledged to VSSN Agalakere] 3. Bheemappa S/o Pakeerappa Naikar [Pledged to VSSN Agalakere] 4. K. Shantaram Shetty S/o Kakubal Krishnappa 5. A. Suresh Babu S/o Sheshagiri Rao 6. A. Bheemavva W/o Hanumantappa 7. Bheemappa S/o Sanna. Mallappa
				178/B	Private	Irrigated	56	1. Gurunath Bhat S/o Thimmanna Bhat [Pledged to Syndicate Bank Munirabad] 2. Ravindranath S/o Lokappa Mannur [Pledged to VSSN Hosalli]
				154	Private	Irrigated	728	Suni Tulasiram S/o Dharmachandaji
		16. Munirabad		163	Private	Irrigated	1947	Shankargowda
				164/P1	Govt	Dry	2254	Government - Central Coconut Plantation - Department- Munirabad
				XXX	Govt	Dry	12527	Government of Karnataka
		17. Holemodlapur		112	Private	Irrigated	1841	Abdul Rasheed Khan S/o Pathekan R/o Munirabad
				113	Private	Irrigated	357	Abdul Suman Khan S/o Pathekan
				110	Private	Irrigated	28	1. Abdul Azeed Khan S/o Pathekan 2. Iqbal Hussain D-B S/o D.M. Basheer Basha
				109	Private	Irrigated	62	Mare Gowda S/o Hanumantha Gowda [Pledged to VSSN Munirabad]
				108/P2	Private	Irrigated	258	1. Venkappa S/o Mudiyyappa 2. Ningappa S/o Mudiyyappa R/o Hosanangapur [Pledged to SBM Munirabad]
				103	Private	Irrigated	282	Dr. Chandrashekar S/o Eranna Kumbhar
				105	Private	Irrigated	26	1. C.H. Govindappa S/o Narayanappa Hospet 2. Rajesh Kumar S/o T.K. Byadagi
				101	Private	Irrigated	231	Sangappa S/o Era Basappa R.H.A
				97/2	Private	Irrigated	267	A. Nataraj S/o Arunappa Gowdar
				96	Private	Irrigated	35	1. Jaleel Ahmad S/o Vakil Ahmad 2. Khatijabi W/o Shaik Allabakshisab 3. Huligemma W/o Hanumappa Uppar
				72	Private	Irrigated	382	1. Sanna. Ramanna S/o Anjanappa Kabber 2. R. Lakshman S/o Sanna Ramanna
				73	Private	Dry	795	1. Mohindar Singh S/o Sardar Bora Singh 2. Kuldeep Singh S/o Mahendra Singh 3. Balawanth Singh S/o Mahendra Singh
				75	Private	Irrigated	412	B.E. Santosh S/o B.E. Maneekayya
				77/P2	Private	Irrigated	10	1. Hanumantappa S/o Mudukappa Mekali 2. Goneppa S/o Mudukappa Mekali [Pledged to SBM Munirabad]
				68	Private	Irrigated	27	1. Markandappa S/o Yamanappa Hatti 2. Ningappa S/o Mudiyyappa Hosalli [Pledged to SBM Munirabad]
				64	Private	Irrigated	15	Bheemavva W/o Sanna Maregowda Hatti
				63	Private	Irrigated	518	1. Shivappa S/o Fakeerappa Hosanangapur 2. D. Prasad S/o D. Madhu Rao 3. Abul Haneef S/o Abul Ajeed [Pledged to VSSN Munirabad] [Pledged to SBM Munirabad]
				62	Private	Dry	97	Periya Swamy S/o Palaniswamy
				61	Private	Dry	105	Arakoniyyamma W/o Ponnappa
				59	Private	Dry	91	Devappa S/o Dodda Yamanappa Hatti

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58	Private	Dry	925	P. Nataraj S/o P. Perumal
				56	Private	Dry	80	1. Ramanna S/o Biddappa Nayak 2. P. Nataraj S/o P. Perumal
				54	Private	Irrigated	307	1. C.N Govindappa S/o C. Narayanappa 2. Maregowda S/o Hanumantappa Gowda Hatti 3. Hanumangowda S/o Hanumantha Gowda Hatti
				45	Govt	Dry	82	Government - Parampoke
				114	Private	Irrigated	95	M.K Kishore S/o Pichchaiah
				111	Private	Irrigated	345	1. Abdul Azeed Khan S/o Fattékahan 2. Mudukappa S/o Nagappa Hatti 3. Dr. Chandrashekar S/o Eranna Kumabar
				104/2	Private	Irrigated	533	1. Rajesh Kumar S/o T.K Byadagi 2. Aadeppa S/o Hanumappa 3. Balappa S/o Hanumappa Kasankandi
				74	Govt	Irrigated	625	Parampoke (Follow) - Government
				47	Private	Irrigated	325	Maregowda S/o Hanumanth Gowda
				46	Private	Irrigated	993	Maregowda S/o Hanumanth Gowda [Pledged to VSSN Munirabad]
				42	Private	Irrigated	130	Maregowda S/o Hanumanth Gowda [Pledged to VSSN Munirabad]
				44	Private	Irrigated	75	Chanda Lakshman S/o Hanumanthappa Katagal
				160/P1	Private	Dry	112880	Tenant Farming Society Hole-Muddiapur
	2. Yelburga	1. Malaladinni		66/U	Private	Dry	69	1. Hampamma W/o Basawaraj gowdra 2. Sukramgowda S/o Amaregowda 3. Savantravva W/o Siddangowda Police Patil
				46/K	Private	Dry	246	1. Yamanurappa S/o Balappa 2. Sharanappa S/o Somaraya [Pledged with PASC Hirevankalakunta Bank] 3. Basappa S/o Shekarappa 4. Kalkantakora S/o Gurunamsingh [Pledged with PASC Hirevankalakunta Bank]
				29/E	Private	Dry/ Irrigated	227	1. Haneefsab S/o Kashim Sab [Pledge with Syndicate Bank Kustagi] 2. Md.Haneefsab S/o Kasim Sab Shekker [Pledge with Syndicate Bank Kustagi] 3. Kashimabi W/o Saravarsab Shekker. [Pledge with PGB Hire-Vankalakunta Bank]
				28/A	Private	Dry	4132	1. Hire Kashimsab S/o Mammusab 2. Abudalsab S/o Mammusab 3. M.Krishnareddy S/o Venkatreddy (Pledged with VSSN Hirevankalakunta Bank)
				26/3/B	Private	Dry	170	Abdulsab S/o Mammusab Shekker
				22/2	Private	Dry	5049	Sangappa S/o Virabhdappa Mulimani
				24	Private	Dry	163	Government - Mafi Gayarana Date free Reserved Forest.
		2. Kungamari		39/A	Private	Dry	907	1. Sharanappa 2. Hanmappa S/o Dyamappa 3. Hanmappa S/o Yankappa
				35/B	Private	Dry	1015	1. Lakshman S/o Yamanappa gowdru 2. Ramanna S/o Kunteppa Cukkadi (Pledge with PASC Hire-Vankalakunta)
				41/K	Private	Dry	935	1. Kanakappa S/o Timmappa 2. Sharanappa S/o Dyamappa Vaddar
				23/K/A	Private	Dry	138	Hanumavva W/o Nagappa Buth
				20/K	Private	Dry	90	Rudragowda S/o Basangowda Police Patil
				18/3	Private	Dry	2152	1. Badari Narayan S/o Vasudev Varnekar 2. Phakirgowda S/o Hanumagowda 3. Balangowda S/o Hanumagowda Police Patil 4. Sharanappa S/o Kalakappa Byali
				16/2	Private	Dry	219	Bammanalappa S/o Hanumagowda (Pledged With SBM Ilkal)
				13/IEE	Private	Dry	398	1. Hanumantappa S/o Shidlappa Kammar 2. Yamanappa S/o Shettappa 3. Chinnappa Gowda S/o Bujjappagowda 4. Adivappa S/o Kalyanappa
				10/1	Private	Dry	12	1. Tuglegowda S/o Phakkeppa Gowda 2. Tulgeppa S/o Vangleppa (Kajjadar)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3/U	Private	Dry	10	Nagappa S/o Pamapanna Buthnavar
				4/1AA	Private	Dry	3787	1. Sangappa S/o Kalyanappa 2. Shekarappa S/o Adivappa Angadi (Pledge With ASC) 3. Sharanappa S/o Sangappa Allalli 4. Hanumavva S/o Ginchappa
				5/2	Private	Dry	1365	Gangangowda S/o Hanumagowda (Pledged with PLDB)
			3. Uppaladinni	104	Private	Dry	4728	1. Sangavva W/o Sharanappa 2. Murigappa S/o Bassappa Ganji. 3. Shivamma W/o Revanasiddappa 4. Annapurnavva W/o Shreemanta Gowda.
				106	Private	Irrigated	4664	1. Pandurangarao S/o Pralhadrao Kulkarni. 2. Raghavendrarao S/o Pralhadrao Kulkarni. (Pledged with PLDB Yelburga)
				109	Private	Irrigated	6305	1. Mallikarajuna S/o Veerupakshappa Harlapur (Pledge with PGB Hirevankalakunta). 2. Ratnamma W/o Mallikarajuna Harlapur. (Pledge with PGB Hirevankalakunta).
				74/A	Private	Dry	3400	Shankrappa S/o Balappa
				75	Private	Dry	385	1. Ningamma W/o Siddalingangowda Malipatil. 2. Hanumavva W/o Mukkalappa Emmi
				19/B	Private	Dry	78	1. Sharanawva W/o Balappa Banni 2. Shankrawva W/o Hanumappa Gogi 3. Hanumappa S/o Hanumappa Gogi 4. BDO, Karnataka Govt 5. Sahadevappa S/o Hanumantappa Abbigeri. 6. Siddappa S/o Adivappa Emmi 7. Shekarappa S/o Mallappa Madiwalar. 8. Hanumawva W/o Mukkalappa Emmi. 9. Shekarappa Mallappa Madiwalar
				26/B	Private	Dry	2974	Shivappa S/o Hampanna Harlapur
				25/A	Private	Dry	2894	1. Channamallayya S/o Gurushantayya Shastri (Pledge with SCS Hirevankalakunta). 2. Gurushantayya S/o Shambulingayya (Pledge with SCS Hirevankalakunta). 3. Earbassavva W/o Adayya Guruvina Matha. 4. Shavantravva W/o Sangayya
				24/P2	Private	Dry	2448	Sharanabasappa S/o Mahantappa Sajjanar [Pledged with PLDB & RDCC Yelburga & PASC Hirevankalakunta Bank]
				23/P1	Private	Dry	3949	1. Siddaramappa S/o Virupanna Gatti 2. Shivamma (alias) Shankaramma W/o Pamapanna Sajjan.
				22/3	Private	Dry	346	Mahabaleshwara S/o Gangappa Mulimani (Pledge with VSSN Hirevankalakunta)
				39/A	Private	Dry	4099	1. Rudramma W/o Eshwarappa Keri 2. Shivaputrappa S/o Eshappa Keri (Pledge with PASC Hirevankalakunta Bank)
				40	Private	Dry	1005	Pampayya S/o Veerayya [Pledge with G.V.S.K.G Yelburga & VSSN Yelburga Bank]
			4. Hirevan Kalakunta	11	Private	Dry	188	1. Sharanappa S/o Basappa Hugar 2. Andanappa S/o Basappa Hugar
				12/A	Private	Dry/Irrigated	1155	1. Mallikarajuna S/o Veerupakshappa Harlapur, R/o Hirevankalakunta [Pledge to Syndicate Bank Kustagi] 2. Kantappa S/o Bheemappa Harijana Hirevankalakunta
				13/1	Private	Dry/Irrigated	789	1. Yelamanchali Upendra Gopala Rao [Pledged to PASC & VSSN Hirevankalakunta]. 2. Veerupakshappa S/o Eshappa [Pledge to VSSN Hirevankalakunta] 3. Mallappa S/o Eshappa. 4. Basavantappa S/o Eshappa Bangari. (Pledge to VSSN and PASC Hirevankalakunta)
				14/B	Private	Dry/Irrigated	456	1. Gouravva W/o Erappa Kanakgiri 2. V.Katte Basappa S/o Eswaragowda Joga
				15/1	Private	Dry/Irrigated	514	1. Shivanandappa S/o Basappa Sajjan, R/o Hirevankalakunta [Pledge to PASC Hirevankalakunta]. 2. Karthachanda S/o Mahengu Ram Sharma.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/AA	Private	Dry/ Irrigated	811	1. Sharanappa S/o Bheemseppa. 2. Hanumappa S/o Bheemseppa. [Pledge to PASC Hire-Vankalakunta] 3. Veeranagowda S/o Shivanagowda Kayi.
			5. Gunnal	25	Private	Irrigated	23	1. Ningappa S/o Mahantappa Jeer [Pledged to SBI Koppal] 2. Balappa S/o Hiremahantappa Jeer [Pledged to SBM Koppal] 3. Sharanappa S/o Sanna. Mahantappa Jeer.
				26/A	Private	Dry/ Irrigated	203	1. Sharanappa S/o Yamanappa Gadagi 2. Savitravva W/o Eshappa [Pledged to SBM Koppal] 3. Sharanappa S/o Amarappa [Pledged to SBM Koppal] 4. Bheemappa S/o Basappa Allalli 5. Patravva S/o Shankrappa M/G Shankrappa Balappa 6. Savitravva W/o Eshappa 7. Shailavva W/o Sharanappa 8. Bheemappa S/o Basappa Allalli 9. Bandavva S/o Eshappa R/o Gunnal 10. Mahadevappa S/o Shankarappa Mamani [Pledged to PGB Hirevankalakunta] 11. Raghavendrachar S/o Swamirachrya Joshi
				12	Private	Dry	1416	1. Ningappa S/o Huchchappa Ingaladal 2. Jagadeesh S/o Phakirappa Ingaladal [Pledged to VSSN Bevor]
				11/IA	Private	Dry	4605	1. Annapurnamma W/o Maliyappa Badiger [Pledged to VSSN Bevor] 2. Shreenivas Rao S/o Ram Rao Hulihydar 3. Pradeep Kumar S/o Mohanlal [Pledged to PGB Hirevankalakunta]
				10/6	Private	Dry	59	Sanna Shantavva W/o Yamanappa
				167	Private	Dry	319	1. Geetabai S/o Ragappayya Desai 2. Mallikarjuna S/o Rudra gowda Kenchammanavar
				160	Private	Dry	680	1. Kariyappa S/o Hanumappa 2. Yamanappa S/o Basappa 3. Mahantappa S/o Balappa 4. Basavva W/o Basappa 5. Mariyappa S/o Phakirappa Jeer
				142	Private	Dry	351	1. Vasudev S/o Ramappa Valmiki 2. Vithob S/o Ramappa Valmiki 3. Nagappa S/o Ramappa Valmiki 4. Narayana S/o Ramappa Valmiki 5. Venkatesh S/o Ramappa Valmiki 6. Krishnappa S/o Hanumappa Valmiki [Pledged to PLDB Yelburga] 7. Prhalad S/o Hanumappa Valmiki
				140/IAA	Private	Dry	134	Ningappa S/o Yankappa Phakirappa S/o Yankappa
				141	Private	Dry	114	Ningappa S/o Yankappa Phakirappa S/o Yankappa
				139/2A	Private	Dry	351	1. Sharadavva W/o Basawaraj Nelajari 2. Ashwinikumar Sharma S/o Nekachand Shrama 3. Bhogappa S/o Nemanna Dani R/o Gunnal
				137/I-1	Private	Dry	27	1. Nagappa S/o Sankappa, M/G Renukavva Ingaladal 2. Kulvindersingh S/o Achcharsingh
				130/A1	Private	Irrigated	3654	1. Shanmukappa S/o Yamanappa Gudagi 2. Chinnappa S/o Yamanappa Gudagi 3. Manjappa S/o Yamanappa Gudagi 4. Basappas S/o Parappa 5. Hanumavva S/o Thimmappa Koravar 6. Mudukappa S/o Thimmappa Koravar [Pledged to PLDB] 7. Nagappa S/o Yamanappa Gudagi 8. Devappa S/o Dyamappa Nelajeri
			7. Myadaneri	11/A	Private	Dry	2107	Ningappa S/o Dyamappa Meti
				15/A	Private	Dry	92	1. Ningappa S/o Advi Hanumappa 2. Hanumappa S/o Ningappa M/G Advi Hanumappa
				23	Private	Dry	853	Achchavva W/o Ramangowda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24/U	Private	Dry	2724	1. Hanumappa S/o Ningappa Kudrikotgi [Pledged to VS&N Bevoor] 2. Dyamappa S/o Balappa 3. Hanumappa S/o Hanumappa
				25/1&2	Private	Dry	1764	1. S. Narasappa S/o Sanna Narasappa Kashi Vataparavi 2. Yankappa S/o Sanna Narasappa
				26/3	Private	Dry	2596	1. Dyamavva W/o Shekappa 2. Shantavva W/o Sangappa Nelajeri 3. Dyamappa S/o Gundappa Meti
				29/AA1	Private	Dry	3157	1. Shankrappa S/o Dyamappa Meti 2. Basappa S/o Dyamappa Meti
				40	Private	Dry	3256	1. Gururaj Rao S/o Vasudev Rao Desai 2. Raghavendra Rao S/o Vasudev Rao Desai 3. Anant Rao S/o Vasudev Rao Desai
				41/EE	Private	Dry	214	1. Ningappa S/o Kenchappa 2. Dyamappa S/o Mudukappa 3. Mylarappa S/o Mudukappa 4. Basappa S/o Dyamappa 5. Sanna Ningappa S/o Basappa Kudrikotgi
				39/A	Private	Dry	2681	1. Erappa S/o Shankrappa 2. Hanumantappa S/o Yankappa Pujari 3. Gururaj Rao S/o Vasudev Rao Desai 4. Raghavendra Rao S/o Vasudev Rao Desai 5. Anant Rao S/o Vasudev Rao Desai
				38/E	Private	Dry	3740	1. Dyamanna S/o Yankappa Devaramani [Pledged to VSSN Bevoor] 2. Manjunath S/o Shankrappa Vataparvi 3. B. Satyanarayana Shetty S/o Lingayya Shetty
			8. Kowahalli	15	Private	Dry	451	1. Hanamappa S/o Balappa Chilakmukki 2. Ramappa, Shankrappa S/o Hire Hanumappa
				16	Private	Dry	449	1. Bharamappa Mudakappa Ingaladal 2. Pampan Gowda S/o Narayan Gowda Swagi 3. Balappa S/o Mudukappa Ingaladal
				19/A1	Private	Dry	289	1. Ratnawva W/o Shivappa Neelagar 2. Somappa S/o Shivappa Ingaladal 3. Sharanappa S/o Hoiliyappa
				20/AA	Private	Dry	232	1. Neelakantappa S/o Shivappa 2. Nagaraj S/o Mudukappa Ingaladal
				23/A	Private	Dry	285	1. Ningappa S/o Neelappa Chukkadi 2. Gurunathasa S/o Dharma Sa Dani
				24/A	Private	Dry	1152	1. Ningappa, Karadeppa S/o Sharabanna Mulimani 2. P. Anuradha W/o P. Prabhakar Shetty. 3. Jambappa S/o Ningappa Mulimani 4. Satya Narayan Shetty S/o Lingayya Shetty 5. Gangawva W/o Mailarappa
				27/EE	Private	Dry	1396	1. Erappa Kemp Hanamappa Harijan 2. Kanakappa S/o Bheemappa Harijan
		3. Kustagi	1. Kurubnalli	12/1-1	Private	Dry	88	Shailesh ShaShikant sarasvati S/o Shashikant Dattatreya sarasvati Tarklkatte
				17	Private	Dry	692	1. Phakirappa S/o Bheemappa 2. Balappa S/o Hanumappa 3. Ningappa S/o Honakerappa 4. Rajiya Begam D/o Ibrahimab 5. Honakerappa S/o. Pakirappa
				13	Private	Dry	715	1. Veerupakashappa S/o. Sangappa Hanumsagar 2. Lachamappa S/o Sangappa Hanumasagar 3. Sangappa S/o Hanumappa.
				15	Private	Dry/ Irrigated	540	1. Veerabhadrapa S/o. Basappa 2. Sharanappa S/o Hanumappa
				3	Private	Dry/ Irrigation	114	1. Nijalingappa S/o Tippanna 2. Dugappa S/o Mariyappa 3. Nijalingappa S/o Tippanna
			2. Uppar-Basapur	37/2	Private	Dry	2074	Somappa S/o Chandappa Lamani
				38/1	Private	Dry	2031	Ambavva W/o Nanappa Lamani
				38/A	Private	Dry	340	Lasagiriappa S/o Nemappa Lamani, R/o Bodur Thanda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				38/A	Private	Irrigated	1669	Hanamappa S/o Nemappa Lamani Lamani, R/o Bodur Thanda
				39	Private	Dry	3392	1. Tulachappa S/o Tavareppa Lamani, R/o Bodur Thanda 2. Chandappa S/o Golappa Lamani 3. Tavareppa S/o Shankrappa Lamani
				42/2P1	Private	Dry	1429	Vijay Naik S/o Pakirappa Naik
				42/2P2	Private	Dry	2362	Shankuntalavva W/o Vijay Naik
				42/2P2	Private	Irrigated	167	Shankuntalavva W/o Vijay Naik
			3. Naduvalakoppa	9/4	Private	Dry	1455	Pushapa Singh S/o Mohan Singh Rajpurohit
				9/EE	Private	Dry	900	Mallappa S/o Rachappa Agni
				9/AA	Private	Irrigation	2681	Laxmappa S/o Durgappa
				9/3	Private	Irrigation	996	Kariyappa S/o Duragappa Gollar (Pledged with PGB)
				9/E E	Private	Irrigation	396	1. Hanumappa S/o Yankappa R/o Kadekoppa 2. Kanakappa S/o Yankappa R/o Kadekoppa
				9/1	Private	Irrigation	175	Pushpal Satya Narayan S/o P. Veerayya, R/o Kerehalli (Deputy Manager SBI Hospet Pledge)
				9/AA	Private	Irrigation	1443	Noorja Bhegam W/o Hasansab Dhotihall
				13/4/1	Private	Dry	4012	Basawaraj S/o Chandrashekarayya M/G Chandrayyashekarayya S/o Mahantayya Ingalagi
				13/A	Private	Dry	4218	Channabasayya S/o Gangayya M/G Gangayya Ingalagi Hunagunda
			4. Kyadiguppa	12	Private	Dry	8988	1. Ramalingappa S/o Mariyappa Gugalamari. 2. Shantappa (Adopted) S/o Basappa Musigeri 3. Sagarappa S/o Shiddappa Hirekodagali. 4. Kumari Ramya D/o Panduranga Sheth.
				14/A	Private	Dry	2223	1. Manappa S/o Basappa Kammar (Pattar). 2. Yalaguradappa S/o Balappa Talwar.
				15/A P1/2	Private	Dry	651	1. Nagawwa W/o Yalagurdappa Talwar. 2. Doddappa S/o Kariyappa Talwar 3. Rekahappa S/o Lokappa Lamani
				7	Private	Dry/ Irrigated	3175	1. Hanamappa S/o Laxmappa Beleri 2. Doddappa S/o Kariyappa 3. Yalaguradappa S/o Kariyappa 4. Gagngawwa W/o Kanakappa 5. Hanumappa Laxmappa Beleri 6. HanmappaS/o Sanna Yalagurdappa 7. Balappa S/o Sanna Yalagurdappa 8. Sanna Thirappa S/o Sanna Yalagurdappa.
				167/3	Private	Dry/ Irrigated	75	1. Sushila Bai W/o Hanamanth Rao Desai. 2. Thirumala Rao S/o Hanamanth Rao Desai.
				123/1A	Private	Dry/ Irrigated	1171	Shiddappa S/o Basappa Bhajantri.
				122	Private	Dry/ Irrigated	3187	1. Mallikarjuna S/o Devareddappa Chalageri (Pledge to PGB Bank) 2. Hanamappa S/o Bharamappa 3. Abdul Rajak S/o Khasim Ali Paniband
				117/3	Private	Dry/ Irrigated	5250	Ganapathi S/o Narayan Rao Desai
				119/1, 1P	Private	Dry/ Irrigated	2287	1. Aasha W/o Shivakumar Kammar 2. Mudi Rangappa S/o Basappa Pattar.
				119/2	Private	Dry/ Irrigated	3431	1. Shivakumar S/o Mudi Rangappa 2. Rasheeda Banu W/o Md. Ikbal 3. Shivakumar S/o Mudi Rangappa Kammar
				119/3, 3A	Private	Dry/ Irrigated	1837	1. Kamala Bai W/o Veerabhadrapa 2. Shankaramma W/o Basappa Pattar 4. Mukthum Sab S/o Rajesab Pinjar
			5. Kadekoppa	4	Private	Irrigation	2596	Sharanegowda S/o Rachanagowda Police Patil (Pledged with Dotihal PGB)
				5/8A	Private	Dry	3124	Sharanegowda S/o Rachanagowda Police Patil (Pledged with Dotihal PGB)
				6/9	Private	Dry	1421	Shivaputrappa S/o Ningappa Kanchi
				6/8	Private	Dry	156	Shivaputrappa S/o Ningappa Kanchi
				6/3/P	Private	Dry	100	1. Holiyappa S/o Mallappa Valekar 2. Hanumappa S/o Mallappa Valekar 3. Shankrappa S/o Mallappa Valekar
				6/2,4P2	Private	Dry	193	1. Hanumavva W/o Yallappa Valekar 2. Hanumantappa Piddappa Meti [Pledged to Syndicate Kushtagi]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/1/A	Private	Dry	1049	Maliyappa Basappa
				6/1/A	Private	Dry	468	1. Hanumantappa Piddappa Meti 2. Kamalamma D/o Valeppa Rathod 3. Renamma D/o Valeppa Rathod 4. Devamma D/o Valeppa Rathod 5. Valamma D/o Valeppa Rathod (Pledged with Syndicate Bank Kushtagi)
				7/1A2	Private	Irrigated	2084	1. Mahamad Ikbal S/o Husensab Hakki 2. Yankanna S/o Melgiri Dalbanjas
				9/1A/1	Private	Irrigated	790	1. Dyamanna S/o Honnappa 2. Ramappa S/o Honnappa
				9/2AA	Private	Irrigated	756	Honnappa Yamanappa M/G Yankavva W/o Yamanappa
				9/3	Private	Dry	790	Shreekantgowda S/o Baramgowda Patil
				10/2	Private	Dry	212	1. Lingangowda S/o Mallikarjuna Gowda 2. Basangowda S/o Mallikarjuna Gowda 3. Nagaratna W/o Sangangowda Patil
				10/4	Private	Dry	1905	Rachan Gowda S/o Erangowda
				10/3	Private	Dry	1092	1. Rudragowda S/o Channasanganagowda Patil 2. Shivangowda S/o Channasanganagowda Patil 3. Pamapanagowda S/o Channasanganagowda Patil 4. Channappa Gowda S/o Channasanganagowda Patil
				24	Private	Irrigated	2965	1. Parasappa S/o Erappa M/G Brother Parasappa 2. Yallappa S/o Erappa M/G Brother Parasappa 3. Basappa S/o Erappa M/G Brother Parasappa 4. Parasappa S/o Erappa M/G Brother Parasappa
				23/5	Private	Irrigated	968	Shivanand S/o Appaji R/o Ilkal
				23/6	Private	Irrigated	1401	Shivanand S/o Appaji R/o Ilkal
				26/AA	Private	Irrigated	1828	Ningappa S/o Sangappa Arer
			6. Vanageri	84	Private	Irrigated	2514	1. Hanumappa S/o Peerappa Rathod 2. Phakeerappa S/o Rudrappa Lamani
				82	Private	Dry/ Irrigated	4584	1. Pomappa S/o Gopanna alias Govappa Lamani 2. Ravi Kumar S/o Sadanadappa Palankar [Pledged to VSSN Taluvagera] 3. Yamanappa S/o Gopanna 4. Hanumappa S/o Lachamappa 5. Shankrappa S/o Basappa Rajur 6. Sharanamma W/o Amareesh Echanal
				74/2	Private	Dry/ Irrigated	13686	Yamanappa S/o Bheemappa Talwar (Hissadar -1) Kalakappa 2)Dyamanna)
				70/1	Private	Dry/ Irrigated	4820	Ravikumar S/o Sadanadappa Palankar [Kabjadar-Laxmi Bai]
				57	Private	Dry/ Irrigated	3230	1. Gaddeppa S/o Hireyanna 2. Shantappa S/o Rajappa 3. Yamanappa S/o Bheemappa (Hissadar- 1) Kalakappa 2.) Dyamappa S/o Bheemappa) 4. Gurusangangowda S/o Amaregowda Bodur 5. Yashodha W/o Sharanappa Gorebal (Pledged to TGB Kushtagi)
				55/E	Private	Dry/ Irrigated	234	Thippanna S/o Maregowda
				52	Private	Irrigated	5999	1. Hanumavva W/o Phakeerappa 2. Neelamma W/o Panchakshariah Hiremath [Pledged to Syndicate Bank Kushtagi]
				51/2	Private	Irrigated	5290	1. Bheemavva W/o Hanumappa Harijan 2. Hanumappa S/o Yamanappa Harijan 3. Holiyappa S/o Pamappa Megalmani 4. Mariyappa S/o Jadyappa Harijan 5. Rajusingh S/o Dhokal Singh Rathod
				16	Private	Irrigated	6955	1. Parasappa S/o Mudibasappa 2. Chatrappa S/o Mudibasappa 3. Hanumavva W/o Hanumappa
				234	Private	Irrigated	562	Aralappa S/o Shyamanna Eliger
				235/2	Private	Irrigated	3075	Bheemangowda S/o Shyamanna Eliger (Hissadar- Shivappa S/o Narayanappa Rajappa S/o Bheemanray)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				211/1	Private	Irrigated	1489	1. Chandramma W/o Gaddnesab Nadaf 2. Lalitha W/o Nagappa Hosa Vakkal 3. Annapurna S/o Kamanna Kamannawar 4. Balappa S/o Yankappa Yarageri 5. Chandrashekar S/o Hanumantappa Konasagar
			7. Kushtagi	246	Private	Dry	475	1. Eramma W/o Channabasappa 2. Sangmesh S/o Mallikarjuna Chatter 3. Kotramma W/o Basappa Chatter
				251	Private	Dry	2839	1. Yamanavva W/o Kanumappa 2. Sangavva W/o Nagappa
				209	Private	Dry	5631	1. Hussainsab S/o Gidda Hussainsab 2. Mohammadsab alais Bashu S/o Gidda Hussainsab 3. Veereshappa S/o Shankappa Tarukani 4. Peersab S/o Khashimsab Bedarakote 5. Suvanna W/o Ravindra Pattanshetty 6. Rajendra S/o Vinayaka Shiragavakar 7. Buvaddinsab S/o Hussainsab 8. Mahaboobsab S/o Hussainsab 9. Modhinbi W/o Babusab 10. Budnesab S/o Budnesab 11. Khasimbi W/o Khasimab 12. Sanna Dawalsab S/o Hussainsab 13. Julekha Begam W/o Hire- Dawalsab
				210/C/B	Private	Dry	749	Lakshmana Rao S/o Gurubheema Rao Mujumdar [Pledged to Co-Op Bank Ilakal]
				207/2	Private	Dry	1687	Kalakappa S/o Kotreppa Nayakawadi
				206	Private	Dry	32	1. K. Mahesh S/o Sharanappa 2. Prakash S/o Channappa Revanakar 3. Vijaya W/o Prakash Revanakar 4. Sharanavva W/o Thimmangowda Patil 5. Sarojamma W/o Ashok Balutagi 6. Nagaraj S/o Chandrashekarappa Kandagal 7. Narayanappa S/o Narasappa Kommatar Gejjalagatti 8. Biyabi W/o Ghudusab Dhotihal 9. Hasansab S/o Nabisab Dhotihal 10. Imambi W/o Khasimsab Sirwar 11. Ravikumar S/o Sadananda Palanakar
				55	Private	NA/Dry	160	1. Subbarao S/o Hanumantha Rao Shetti 2. Durugappa S/o Mudukappa Sangati 3. Chandamma W/o Basappa Hosur
				60	Govt/ Private	NA/Dry	1667	1. Siddaiah S/o Rudraiah Kampapurmath 2. Neelamma W/o Basaiah Kampapurmath 3. K.I.A.D.B Gulburga
				61	Govt	NA/Dry	1195	K.I.A.D.B Gulburga
				68/1	Govt	NA	359	TMC Kustagi
				68/2	Private	NA	680	1) K. Padma W/o K. Keshva Reddy 2) TMC Kustagi
				69	Private	NA	140	1. Mudiyaalappa S/o Balappa Kattiholed 2. Hanumavva W/o Ningappa 3. Hannappa S/o Balappa 4. Masamma W/o Ramappa Sangati 5. Adavi Rao Raghavendra Rao Tikotikar 6. M. Husainbee W/o Phakirappa
				78	Private	NA	3165	1. Parvathemma W/o Yamanappa Gaddi 2. Gyanappa S/o Yamanappa Gaddi 3. Jambanna S/o Bhadrappa Shetra 4. Sangappa S/o Virupakshappa 5. Hanumavva W/o Narasaiah 6. Shivaraj S/o Shranappa
				273	Govt	NA/Dry	468	TMC Kustagi Gayatri W/o Venkanna Joshi (Due to non availability of Layout Plan, Land holders name is mentioned) Thimmappayya S/o Bhimappayya
Grand Total:							635539	

[F. No. NHAI/11013/01/209-LA/KRT/Dharwad]

S. S. GULIA, Director